

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15—अगस्त 21, 2015 (श्रावण 24, 1937)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15—AUGUST 21, 2015 (SRAVANA 24, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित  
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2015

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 193, दिनांक 23 जुलाई 2015—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं —

श्री यू वी पी शिवारामाकृष्णा को संनिर्माण अभियन्ता ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 06 दिसम्बर 2013 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रू0 15600 – 39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रू0 6600 पर ।

श्री हिमांगा दास को संनिर्माण अभियन्ता, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 09 जुलाई 2013 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रू0 15600 – 39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रू0 6600 पर ।

श्री देवराज बनर्जी को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 05.03.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रू0 9300–34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू0 4600 पर ।

श्री संजीव कुमार सेठ को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 16.04.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रू0 9300–34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू0 4600 पर ।

श्री एस श्री रमना को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 04.06.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 2 में रू0 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू0 4600 पर ।

श्री मेन्चु श्रीनिवास को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 30.04.2015 (पूर्वाह्न) से पै बैंड 2 में रू0 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू0 4600 पर ।

राजीव रंजन सिन्हा  
उपनिदेशक (कार्मिक एए2)

सेना सचिव शाखा

सं. 194, दिनांक 24 जुलाई 2015—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

आई सी—34765 ए/ले0 जनरल इकबाल सिंह सिंघा, वी एस एम राज रिफ	01.07.13
--	----------

मेजर जनरल के मूल रैंक में

आई सी—39283 ए/मेजर जनरल कंवल कुमार आर्मी अवियशन	01.12.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.04.11 से दी जायेगी ।
आई सी—35501 ए/मेजर जनरल के ए मुथाना, एस एम, गढ रिफ	23.01.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.05.10 से दी जायेगी ।
आई सी—38289 ए/मेजर जनरल एस एस जाखड़, राजपूत	01.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.10.10 से दी जायेगी ।
आई सी—38405 ए/मेजर जनरल डी एन सिंह, आर्टी	29.01.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.10.11 से दी जायेगी ।
आई सी—38711 ए/मेजर जनरल विनोद कुमार, वी एस एम, मेक इंफ	07.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.10.11 से दी जायेगी ।
आई सी—38720 ए/मेजर जनरल ए एस चौधरी, आर्टी	05.08.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.10.11 से दी जायेगी ।
आई सी—38758 ए/मेजर जनरल रामकुमार कोहली, ए एस सी	07.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.10.11 से दी जायेगी ।
आई सी—39299 ए/मेजर जनरल जॉयदीप भाटी, मेक इंफ	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.10.11 से दी जायेगी ।
आई सी—39321 ए/मेजर जनरल ए के शुक्ला, वी एस एम, राज रिफ	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.10.11 से दी जायेगी ।
आई सी—39366 ए/मेजर जनरल बी चक्रवर्ती, आर्टी (जी सी)	01.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.10.11 से दी जायेगी ।
आई सी—38796 ए/मेजर जनरल सुनील यादव, वाई एस एम जैक रिफ	02.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.10.11 से दी जायेगी ।

आई सी-39229 ए/मेजर जनरल डी अग्निहोत्री, मेक इंफ	19.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-37769 ए/मेजर जनरल वी जी रामाकृष्णन, सिग्स	01.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-37793 ए/मेजर जनरल नवनीत खन्ना, वी एस एम, जैग	01.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39434 ए/मेजर जनरल एम एस कोहली, 14 होर्स	09.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39435 ए/मेजर जनरल संजीव बजाज, इंजीनियर्स (जी सी)	19.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39436 ए/मेजर जनरल एस के सैनी, वाई एस एम, वी एस एम, जाट	25.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39437 ए/मेजर जनरल एस टी उपासनी, एस एम, वी एस एम, जाट	07.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39443 ए/मेजर जनरल एम एस खारा, आर्टी	01.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39445 ए/मेजर जनरल एस एस हसाबिस इंजीनियर्स (जी सी)	22.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39450 ए/मेजर जनरल ए पी सिंह, आर्म्ड	19.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39457 ए/मेजर जनरल एम एस घुरा, वी एस एम, राज रिफ	19.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39458 ए/मेजर जनरल ए पी डेरे, आर्म्ड	01.12.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39464 ए/मेजर जनरल ठाकुर एम एच, ए एस सी	01.12.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39465 ए/मेजर जनरल ए जे एस बेदी, वी एस एम, गढ रिफ	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39472 ए/मेजर जनरल जे के मारवाल, ग्रेन	19.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.10.11 से दी जायेगी।
आई सी- 39492 ए/मेजर जनरल अनिल चौहान, वी एस एम, 11 जी आर	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39500 ए/मेजर जनरल सी ई फर्नांडीज, एस एम, बिहार	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39501 ए/मेजर जनरल ए पी सिंह, ए ए डी	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.10.11 से दी जायेगी।

आई सी-39512 ए/मेजर जनरल नीरज वर्मा, आर्टी	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39521 ए/मेजर जनरल वाई टी जैन, आर्टी (जी सी)	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39522 ए/मेजर जनरल जे एस नेगी, वी एस एम**, डोगरा	01.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39569 ए/मेजर जनरल पी आर एस, चौधरी, आर्टी	01.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39581 ए/मेजर जनरल बलराज सिंह, इंजीनियर्स	21.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39591 ए/मेजर जनरल सुनील कुमार, आर्टी	24.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39598 ए/मेजर जनरल जी जयशंकर, महार	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39603 ए/मेजर जनरल जे एस पठानिया, ए ओ सी	01.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39607 ए/मेजर जनरल आई एस घुमन, गार्ड्स	01.03.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39609 ए/मेजर जनरल अजय ओहरी, कुमाउं	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39621 ए/मेजर जनरल आर के भारद्वाज, आर्टी (जी सी)	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39624 ए/मेजर जनरल पी एम बाली, वी एस एम, पंजाब	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39643 ए/मेजर जनरल राजीव एडवर्ड्स, आर्म्ड	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39655 ए/मेजर जनरल हेमन्त जोनेजा, 8 जी आर	01.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39673 ए/मेजर जनरल जे एस यादव, एस एम, आर्म्ड	04.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39675 ए/मेजर जनरल विजय सिंह, एस एम, 9 जी आर	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39676 ए/मेजर जनरल डी वी एस राना, एस एम, वी एस एम, जैक लि	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39682 ए/मेजर जनरल एस के सिंह, आर्टी	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.10.11 से दी जायेगी।

आई सी-39709 ए/मेजर जनरल एस एस सालुजा, ए ओ सी	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39780 ए/मेजर जनरल के के पन्त, राज रिफ	04.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-41456 ए/मेजर जनरल आर के आनन्द, वी एस एम, सिग्स	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39864 ए/मेजर जनरल वी डी डोगरा, 17 होर्स	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39865 ए/मेजर जनरल माइकेल मैथ्यूज, वी एस एम, इंजीनियर्स	12.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39868 ए/मेजर जनरल सुनील श्रीवास्तव, आर्टी (जी सी)	01.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39870 ए/मेजर जनरल एस के माथुर, ई एम ई	05.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39871 ए/मेजर जनरल एस के उपाध्या, एस एम, गढ रिफ	01.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39872 ए/मेजर जनरल अनिल कपूर, वी एस एम, ई एम ई	15.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39874 ए/मेजर जनरल तरनजीत सिंह, आम्ड	27.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39879 ए/मेजर जनरल ए के धर, एस एम**, पैरा	27.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39888 ए/मेजर जनरल अश्विनी शर्मा, ई एम ई	11.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39898 ए/मेजर जनरल डी एस आहुजा, इंजीनियर्स	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39909 ए/मेजर जनरल पी एस सन्धु, मेक इंफ	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39929 ए/मेजर जनरल सरनजीत सिंह, सिक्ख लाई	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39930 ए/मेजर जनरल वी पी एस भकुनी, वी एस एम, डोगरा	04.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39943 ए/मेजर जनरल अजय वधवा, वी एस एम, इंजीनियर्स	08.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39956 ए/मेजर जनरल जी एस संघा, एस एम, वी एस एम, ग्रेन	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39970 ए/मेजर जनरल संदीप एप्टे, आर्टी	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.10.11 से दी जायेगी।

आई सी-39977 ए/मेजर जनरल एन एस राव, आर्टी	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39988 ए/मेजर जनरल एम के यादव, गढ रिफ	19.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39992 ए/मेजर जनरल अनूप कुमार वी, मराठा लाई	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39995 ए/मेजर जनरल एस एस मामक, आर्टी	12.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-39996 ए/मेजर जनरल राजीव सभरवाल, सिग्स	11.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-40007 ए/मेजर जनरल वाई वी के मोहन, एस एम, 11 जी आर	01.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-40022 ए/मेजर जनरल ए के भट्ट, एस एम, वी एस एम, 9 जी आर	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-40025 ए/मेजर जनरल जी आर सिंह, ए ओ सी	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-40028 ए/मेजर जनरल एस पी एस कोहली, इंजीनियर्स	08.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-40031 ए/मेजर जनरल संजीव कनाल, आर्टी	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-40098 ए/मेजर जनरल दुष्यन्त सिंह, मराठा लाई	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-40133 ए/मेजर जनरल ए सी मेस्टन, वी एस एम, महार	08.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-40156 ए/मेजर जनरल संदीप शर्मा, वी एस एम, सिग्स	01.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-40235 ए/मेजर जनरल आर गोपाल, 8 जी आर	01.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.10.11 से दी जायेगी।
आई सी-40240 ए/मेजर जनरल वी नांगिया, कुमाउं	16.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.10.11 से दी जायेगी।

## ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

आई सी-45367 ए/ब्रिग इन्द्रजीत सिंह, मेक इंफ	01.02.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43016 ए/ब्रिग एस शर्मा, मेक इंफ	22.02.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43037 ए/ब्रिग देविन्दर यादव, इंट	31.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.06.11 से दी जायेगी।

आई सी-44873 ए/ब्रिग आदर्श भारद्वाज, ई एम ई	01.02.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45493 ए/ब्रिग राजीव कपूर, ई एम ई	01.04.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45517 ए/ब्रिग राकेश, जैग	25.01.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43220 ए/ब्रिग एस पी एस सिद्धु, मेक इंफ	01.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43331 ए/ब्रिग एस सी पंवार, एस एम, सिक्ख	01.08.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43352 ए/ब्रिग एन डी जी डी जोशी, एस एम, इंट	31.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-47496 ए/ब्रिग डी बी पैनी, ई एम ई	13.01.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45531 ए/ब्रिग बी जी जगदीश, ई एम ई	01.02.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45541 ए/ब्रिग टी पी जे चन्द्रन, सिक्ख	16.01.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45549 ए/ब्रिग एस सेठी, ए ए डी	06.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45555 ए/ब्रिग मोनिष दत्ता, जैक रिफ	20.01.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45564 ए/ब्रिग दिनेश चड्ढा, आर्टी	20.01.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45582 ए/ब्रिग के पी सिंह, मद्रास	01.02.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45583 ए/ब्रिग जे एन पाण्डे, आर्टी	01.02.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43655 ए/ब्रिग के विनोद कुमार, सिग्स	01.02.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43657 ए/ब्रिग पी डी नायडु, इंजीनियर्स	22.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43658 ए/ब्रिग हरि सिंह, इंजीनियर्स	29.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43667 ए/ब्रिग के एस बरार, आर्मर्ड	27.02.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43668 ए/ब्रिग सुनिल कुमार एन वी, राजपूत	01.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.06.11 से दी जायेगी।

आई सी-43669 ए/ब्रिग एस पी सिंह, एस एम, ग्रेन	01.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43673 ए/ब्रिग गुरजाप सिंह, राज रिफ	01.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43676 ए/ब्रिग राजिन्दर सिंह, डोगरा	01.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43679 ए/ब्रिग जी पी एस सिसोदिया, पंजाब	04.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43682 ए/ब्रिग ए के सामन्तारा, एस एम**, मद्रास	08.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43683 ए/ब्रिग एन कुमार, आर्टी (जी सी)	08.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43686 ए/ब्रिग संजीव राय, सिक्ख लाई	08.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43687 ए/ब्रिग विवेक शर्मा, वी एस एम, जाट	15.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43689 ए/ब्रिग पी एस बाजवा, महार	18.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43690 ए/ब्रिग एच एस ढोडी, आर्म्ड	22.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43693 ए/ब्रिग रविन्दर सिंह दहिया, आर्म्ड	25.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43701 ए/ब्रिग एम एस शर्मा, आर्टी	29.03.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43702 ए/ब्रिग पी राहुल, ए ए डी	21.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43703 ए/ब्रिग आर के माथुर, आर्टी	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43704 ए/ब्रिग एस क्यू अहमद, आर्टी	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43710 ए/ब्रिग टी के ऐच, मद्रास	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43711 ए/ब्रिग डी मलहोत्रा, सिग्स	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43712 ए/ब्रिग ए बी के सिबल, इंजीनियर्स	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43717 ए/ब्रिग मुकुन्द शर्मा, इंजीनियर्स	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.06.11 से दी जायेगी।



आई सी-43722 ए/ब्रिग डी के सिंह, डोगरा	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43723 ए/ब्रिग एच के पंत, ए एस सी	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43725 ए/ब्रिग एम के कटियार, राजपूत	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43735 ए/ब्रिग जे सी तालुकदार, आर्टी	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43737 ए/ब्रिग राजीव थापर, सिक्ख लाई	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43746 ए/ब्रिग अदोश कुमार, आर्टी	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43756 ए/ब्रिग संजीव लांगेह, एस एम, जैक रिफ	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43762 ए/ब्रिग निरेन भारती, एस एम, जैक लाई	01.04.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43767 ए/ब्रिग आर श्रीवास्तव, ए ए डी	22.07.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43780 ए/ब्रिग दीपक बनर्जी, गढ रिफ	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43782 ए/ब्रिग आर पी शर्मा, सिक्ख	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43796 ए/ब्रिग समीर गुप्ता, आर्टी	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43810 ए/ब्रिग वासुधेश आर्य, आर्टी	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43820 ए/ब्रिग जी आर एस रेड्डी, एस एम, जैक रिफ	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43823 ए/ब्रिग सतिन्दर सिंह, महार	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43835 ए/ब्रिग आई चटर्जी, गढ रिफ	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43842 ए/ब्रिग एम के दास, एस एम**, वी एस एम, जैक लाई	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43843 ए/ब्रिग अदिश यादव, राज रिफ	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43856 ए/ब्रिग एम जी सेकरन, एस एम, आर्टी	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.06.11 से दी जायेगी।

आई सी-43858 ए/ब्रिग मनजीत कुमार, सिग्स	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43859 ए/ब्रिग एच एस गिल, ए एस सी	01.05.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43875 ए/ब्रिग विजय मेहता, एस एम, जाट	14.06.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43877 ए/ब्रिग आर देवान, सिक्ख	18.06.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43914 ए/ब्रिग आर के माहना, एस एम, कुमांड	29.06.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43944 ए/ब्रिग वी के बाहरी, आर्मी अवियशन	09.12.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43954 ए/ब्रिग एस के सांगवान, वी एस एम, मद्रास	01.07.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43981 ए/ब्रिग शरद कपूर, एस एम, राजपूत	01.07.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44014 ए/ब्रिग एस वी सिंह, ए ई सी	01.02.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43709 ए/ब्रिग बी एस सन्धु, इंजीनियर्स	01.07.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-43684 ए/ब्रिग जे बी चौधरी, एस एम, गार्ड्स	04.07.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-47938 ए/ब्रिग आर के शर्मा, एस एम, इंजीनियर्स	19.07.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-47945 ए/ब्रिग एस पी सिंह, ई एम ई	26.07.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-47960 ए/ब्रिग धीरज मोहन, इंजीनियर्स	01.08.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-47962 ए/ब्रिग पी के जी मिश्रा, इंजीनियर्स	01.08.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-47979 ए/ब्रिग पी एस राना, ई एम ई	01.08.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-47984 ए/ब्रिग एस के कटारिया, इंजीनियर्स	05.08.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-47994 ए/ब्रिग जे के राव, इंजीनियर्स	08.08.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-47999 ए/ब्रिग संदीप भल्ला, वी एस एम, ई एम ई	23.08.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.06.11 से दी जायेगी।

आई सी-47954 ए/ब्रिग अमृत लाल, सिगस	01.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45619 ए/ब्रिग एस एस कटारिया, ई एम ई	01.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45621 ए/ब्रिग चरनबीर सिंह, मेक इंफ	01.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45622 ए/ब्रिग विनय बहल, गढ रिफ	01.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45623 ए/ब्रिग एस नागपाल, ई एम ई	01.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45641 ए/ब्रिग आर सचदेव, डोगरा	01.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-45642 ए/ब्रिग वी जी रेड्डी, एस सी, जाट	01.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44038 ए/ब्रिग एच धर्मारजन, एस एम इंजीनियर (जी सी)	01.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44039 ए/ब्रिग एस जोश, ए ए डी	01.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44040 ए/ब्रिग आर एस रावत, ए ओ सी	18.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44041 ए/ब्रिग एम इन्द्रबालान, इंजीनियर्स	01.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44044 ए/ब्रिग धीरज सेठ, आर्म्ड	09.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44046 ए/ब्रिग जे एस नन्दा, एस एम, पैरा	10.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44048 ए/ब्रिग पी एस जायसवाल, इंजीनियर्स	01.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44051 ए/ब्रिग डी वी सिंह, मेक इंफ	20.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44055 ए/ब्रिग वी एम चन्द्रन, आर्म्ड	22.09.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44056 ए/ब्रिग आर एस यादव, ई एम ई	22.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44057 ए/ब्रिग राजीव मनकोटिया, वी एस एम, 4 जी आर	01.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.06.11 से दी जायेगी।

आई सी-44062 ए/ब्रिग ए वर्मा, राज रिफ	01.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44063 ए/ब्रिग ए अरोरा, जैक रिफ	01.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44065 ए/ब्रिग मनजिन्दर सिंह, मद्रास	01.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44067 ए/ब्रिग ए एन झा, जाट	01.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44074 ए/ब्रिग एस एस बक्शी, आर्टी	09.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44080 ए/ब्रिग आर के सिंह, राजपूत	11.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44082 ए/ब्रिग ए आर एस कहलोन, आम्र्ड	13.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44083 ए/ब्रिग संजय पुरी, गढ रिफ	25.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44088 ए/ब्रिग राजवन्त सिंह, एस एम, ग्रनेडियर्स	31.10.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44090 ए/ब्रिग वी धीमान, आर्टी	01.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44095 ए/ब्रिग ए के कसीद, आर्टी	01.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44096 ए/ब्रिग आकाश पोपली, ई एम ई	01.05.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44098 ए/ब्रिग एस महाजन, ए एस सी	01.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44106 ए/ब्रिग नितिन राम इन्दुरकर, इंफेन्ट्री	08.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44117 ए/ब्रिग एच एस जमवाल, ए एस सी	11.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44128 ए/ब्रिग अरून नायर, जाट	15.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44129 ए/ब्रिग एस रनदेव, ए एस सी	01.03.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44132 ए/ब्रिग सुरेश चन्द्र टांडी, ए ओ सी	15.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30.06.11 से दी जायेगी।

आई सी-44136 ए/ब्रिग रवि डिमरी, कुमाउं	22.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44143 ए/ब्रिग पवन बजाज, डोगरा	22.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44149 ए/ब्रिग आर के सिंह, सिक्ख	28.11.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44153 ए/ब्रिग ए एम मदान, पंजाब	01.12.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44173 ए/ब्रिग ए त्रिपाठी, ए एस सी	01.12.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44191 ए/ब्रिग एस एस ढडवाल, डोगरा	17.12.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44193 ए/ब्रिग रनबीर सिंह, राजपूत	20.12.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44200 ए/ब्रिग दीपक सैनी, डोगरा	20.12.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44202 ए/ब्रिग अरविन्द कपूर, आर्म्ड	30.12.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44239 ए/ब्रिग पी एम सिंह, ए एस सी	30.12.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44256 ए/ब्रिग के बी यादव, पंजाब	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44257 ए/ब्रिग ए के त्रिपाठी, ग्रेनेडियर्स	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44258 ए/ब्रिग गिरिश सूरी, सिग्स	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44263 ए/ब्रिग दीपक त्यागी, सिग्स	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44280 ए/ब्रिग जे एस सम्यल, आर्म्ड	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44293 ए/ब्रिग के एस दलाल, सिग्स	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44316 ए/ब्रिग ए के पाण्डे, ए एस सी	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44330 ए/ब्रिग एम एम रामचन्द्र, जैक लाई	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.07.11 से दी जायेगी।

आई सी-44409 ए/ब्रिग वेनु गोपाल, ए ओ सी	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44261 ए/ब्रिग बृज गोपाल, एस एम, इंफैंट्री	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44211 ए/ब्रिग आई एम लाम्बा, आर्टी	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44272 ए/ब्रिग जी पी एस विरक, आर्टी	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44275 ए/ब्रिग पी रमेश, वी एस एम, आर्टी	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-48476 ए/ब्रिग के के नायक, सिग्स	01.01.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-43246 ए/ ब्रिग एस के कुर्ले, सिग्स	19.10.12 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28.10.10 से दी जायेगी।
आई सी-41628 ए/ ब्रिग जी वेनु, जैक रिफ	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.09.09 से दी जायेगी।
आई सी-45672 ए/ब्रिग तरून मदान, ई एम ई	24.10.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44099 ए/ब्रिग एन वार्ष्णेय, ई एम ई	01.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29.06.11 से दी जायेगी।
आई सी-44218 ए/ब्रिग अजय मलिक, ई एम ई	01.07.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44277 ए/ब्रिग एम एस शेरगिल, ए ओ सी	14.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-44346 ए/ब्रिग टी जग्गी, ई एम ई	01.08.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-48480 ए/ब्रिग एम बी शशिधर, इंजीनियर्स	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-48427 ए/ब्रिग अरविन्द वालिया, इंजीनियर्स	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-48502 ए/ब्रिग अनिल सिंह, इंजीनियर्स	01.09.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08.07.11 से दी जायेगी।
आई सी-04657 ए/ ब्रिग जे पी सिन्हा, एस एल (आर ओ)	01.07.13
एस एल-02995 ए/ ब्रिग वी एस कंदारी, वी एस एम एस एल (ए पी टी सी)	01.07.08

एस सी खनसीली  
निदेशक एम एस (एक्स)

## सेना शाखा

सं. 195, दिनांक 27 जुलाई 2015—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले0 कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

आईसी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आईसी55863	पी एम त्रिपाठी	ए सी	07.04.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी55875	टी बडोला	ए सी	04.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 55901	एम एस राठौर	ए सी	30.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57726	ए शर्मा	ए सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57730	एन तंवर	ए सी	01.08.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57731	आर यादव	ए सी	23.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57733	वी जे कुरियन	ए सी	11.04.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57751	पी कपूर, एस एम	ए सी	28.01.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57970	रंजीव सिंह	ए सी	14.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57989	आर एस राठौर	ए सी	21.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58134	पी बबेरवाल	ए सी	15.03.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58138	आर एस चौहान	ए सी	30.04.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58142	इएसन्तो के	ए सी	08.05.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58405	एस वर्मा, एस सी	ए सी	05.03.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
एस एल 03983	ए एस चौहान	एस एल साइफर	01.04.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.05.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56701	वाइ एस परमार, एस एम	ईसी	10.02.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56912	एम पी सिंह, एस एम	ईसी	17.02.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56918	टी चक्रवर्ती	ईसी	07.03.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

आईसी 56925	आर राघव	ईसी	01.05.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 53156	टी एम सिन्हा	सिग्नल्स	03.03.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.01.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57030	आर के मलिक	सिग्नल्स	04.03.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56675	विशाल दुबे	इन्फैन्ट्री	26.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 55769	पी जोशी	इन्फैन्ट्री	18.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56993	ए एस चौहान	इन्फैन्ट्री	01.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57905	एस राय	इन्फैन्ट्री	25.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57945	पी सरकार	इन्फैन्ट्री	21.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58224	पृथ्वीराज एस आर	इन्फैन्ट्री	05.03.14
आईसी 58284	एस चक्रवर्ती	इन्फैन्ट्री	22.03.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58553	प्रदीप राणा	इन्फैन्ट्री	20.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58403	सी बी भरथन, एस सी	इन्फैन्ट्री	24.03.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56055	आर एस बजाड, एस एम**	इन्फैन्ट्री	05.05.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56061	एच बी थापा, एस एम	इन्फैन्ट्री	19.08.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56075	पठानिया जी	इन्फैन्ट्री	28.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56079	के बी गुरुंग, एस सी	इन्फैन्ट्री	04.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56085	शाह पी के	इन्फैन्ट्री	21.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56123	एस शाह, एस एम**	इन्फैन्ट्री	28.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56155	डी के दयाल, एस एम	इन्फैन्ट्री	20.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58591	एच लीडर, एस एम	इन्फैन्ट्री	12.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।



आईसी 58596	आर चटर्जी	इन्फैन्ट्री	10.10.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58617	आर फर्गाडीज	इन्फैन्ट्री	09.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58622	विकाश गुप्ता, एस सी	इन्फैन्ट्री	04.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58629	अमित काबडवाल	इन्फैन्ट्री	16.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58662	विनेश नायर, एस एम	इन्फैन्ट्री	28.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58671	आर गिरी	इन्फैन्ट्री	01.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58683	ए कँवल, एस एम	इन्फैन्ट्री	25.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58689	जे सिंह	इन्फैन्ट्री	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58704	मुकेश शर्मा	इन्फैन्ट्री	28.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58715	आर दोर्जे	इन्फैन्ट्री	10.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58724	पी एस चौधरी	इन्फैन्ट्री	12.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58734	दीक्षित वी आर	इन्फैन्ट्री	15.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58740	ए के मोर	इन्फैन्ट्री	16.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58742	विजय कुमार	इन्फैन्ट्री	12.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58762	उदय सिंह एम	इन्फैन्ट्री	10.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58765	सुधीर के एस	इन्फैन्ट्री	03.08.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58788	विजय हुड्डा	इन्फैन्ट्री	13.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58790	नीरज पंत, एस एम	इन्फैन्ट्री	18.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58809	शलभ पुन	इन्फैन्ट्री	12.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58813	एस डिन्नी	इन्फैन्ट्री	14.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58817	सीमान्त पाठक	इन्फैन्ट्री	21.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

आईसी 58831	अभिषेक भक्त	इन्फैन्ट्री	30.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58833	एम डी बल	इन्फैन्ट्री	27.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58844	एस धनकर, एस एम	इन्फैन्ट्री	22.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58861	ए उपाध्याय	इन्फैन्ट्री	20.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58865	एस चटर्जी	इन्फैन्ट्री	22.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58875	सुदीप बोस	इन्फैन्ट्री	23.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58884	अनुज गुप्ता	इन्फैन्ट्री	11.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58898	प्रवीण कुमार	इन्फैन्ट्री	12.06.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58929	जी कॅवल, एस एम	इन्फैन्ट्री	11.08.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05.03.2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54453	आर आर चन्देल	मैक इन्फैन्ट्री	11.10.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 55790	आर एस राठौर	मैक इन्फैन्ट्री	01.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 55912	एस गुरुंग	मैक इन्फैन्ट्री	01.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57736	आर चौधरी	मैक इन्फैन्ट्री	01.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57744	सत्यजीत पुजारी	मैक इन्फैन्ट्री	19.02.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57794	वी पी स्वेन	मैक इन्फैन्ट्री	01.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57845	आर मैथ्यू	मैक इन्फैन्ट्री	01.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57873	आर शेखर	मैक इन्फैन्ट्री	20.10.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57898	पी के परीदा	मैक इन्फैन्ट्री	04.02.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58237	मनीष सिंह	मैक इन्फैन्ट्री	11.02.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 51771	के जे सिंह	ए एस सी	01.05.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.05.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 52927	के डी एस हुड्डा	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

आईसी 54222	एस वशिष्ठ	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 55478	वी सोंधी	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54320	के जे सिंह	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54336	ए गौतम, एस एम	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54348	के टी अरासू	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54358	दत्ता टी	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54361	ई पाल, एस एम	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54380	एस के चोकर	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54399	एस बुगालिया	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54431	एन सेहगल	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54473	एम कलैर	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56665	एम जसरोटिया	ए एस सी	07.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56676	डी चौधरी, एस एम**	ए एस सी	05.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56766	एस एस शेखावत	ए एस सी	05.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56856	ओ एस राठौर, एस एम	ए एस सी	05.09.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
एस एल 04005	अशोक कुमार	एसएल बी एस /टी ई ओ	14.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.05.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54449	आर वर्मा	ई एम ई	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54521	वी मेहता	ई एम ई	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 58081	जे पी सिंह	ई एम ई	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56627	पंकज शर्मा	ई एम ई	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56638	दीपक सिसोदिया	ई एम ई	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56655	एस सिंह	ई एम ई	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

आईसी 56657	रोहित उनियाल	ई एम ई	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56666	एच एस लाम्बा	ई एम ई	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56674	समित बत्रा	ई एम ई	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 56698	ए अवस्थी	ई एम ई	05.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21.07.2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 55461	डी एम भोसले, एस एम	ए वी एन	01.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 54501	एन खुराना	ए वी एन	16.04.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57161	जी सिंह	ए वी एन	29.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57173	के एस ठाकुर	ए वी एन	17.07.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57459	एम के दुबे	ए वी एन	28.03.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24.04.2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57741	एस कोहली	आर्टी	14.12.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
एस एल 04195	अनूप सिंह	एस एल टी ओ टी	01.01.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31.12.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
एस एल 04101	आर बी सिंह	एस एल आर ओ	16.05.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.06.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
एस एल 04175	एल खत्री	एस एल आर ओ	16.05.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.01.2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
एस एल 04007	लक्ष्मी नारायण	एस एल क्यू एम	17.02.2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01.05.2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57326	ए सिंह	इन्जीनियर्स	26.07.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31.12.2010से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57759	एस थमैया	इन्फैन्ट्री	25.07.2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04.03.2013से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

मेजर से ले0 कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

22944एफ	एस एम धवन	ए एस सी	18 अगस्त 1987
---------	-----------	---------	---------------

नवीन कुमार  
उप निदेशक, एम एस 8ए

सेना शाखा

सं 196, दिनांक 28 जुलाई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं ।

नियमित सेना

आसूचना कोर

नायब सूबेदार (इन्ट जी डी) के पद पर

रैंक	नाम	आर्मी नं.	जे सी नं.	पदोन्नति की तारीख
हवलदार/इन्ट जी डी	प्रशांता कुमार साहू	13985340एन	जेसी-811962एल	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	नरहरि माईती	13985313एम	जेसी-811963एन	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	अवनीश कुमार त्रिपाठी	14804162ए	जेसी-811964डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	के वी सुनिल कुमार	2595687एम	जेसी-811965वाई	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	मनिवांनान आर	6484630एफ	जेसी-811966एफ	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	राधा कृष्णा पिल्लई एम	15311269एल	जेसी-811967के	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	राम शरण	13693093एफ	जेसी-811968एम	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	श्री राम	14806749एक्स	जेसी-811969पी	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	अलगुर अनिल सिद्धेश्वर	14804066एल	जेसी-811970के	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	वी ईश्वरन	15311760एन	जेसी-811971एम	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	संजय कुमार	14804207पी	जेसी-811972पी	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	जयबीर सिंह	2992403ए	जेसी-811973एक्स	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	अजय कुमार	14806962एक्स	जेसी-811974ए	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	एम वी रेडडी	14806970डब्ल्यू	जेसी-811975एच	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	सुरेश चन्दर पुनिया	15461503एफ	जेसी-811976एल	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	रोहतास	2484028एच	जेसी-811977एन	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	धरम पाल	2484034डब्ल्यू	जेसी-811978डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	हीरा सिंह भाकुनी	4185194डब्ल्यू	जेसी-811979वाई	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	शिवराज सिंह रवाती	4185243एन	जेसी-811980एन	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	सोनू बी	15380231एम	जेसी-811981डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	संतोष कुमार के	15379898एफ	जेसी-811982वाई	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	उमाशंकर जे	2596570ए	जेसी-811983एफ	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	रविन्दर सिंह	3991753डब्ल्यू	जेसी-811984के	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	उन्नी कृष्णन वी	14804428एफ	जेसी-811985एम	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	गफूर के	15379975एल	जेसी-811986पी	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	राजेश सिंह	14807066डब्ल्यू	जेसी-811987एक्स	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	दुराई के	14804445एफ	जेसी-811988ए	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	वी शक्थी	14804451पी	जेसी-811989एच	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	नरसिम्हलु आर	14804455एल	जेसी-811990एक्स	01 जुलाई 2014

हवलदार/इन्ट जी डी	रूप लाल शर्मा	3991775पी	जेसी-811991ए	01 जुलाई 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	एन राजन	13985643एच	जेसी-811993एल	01 अगस्त 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	एस किफायतुल्लाह	14804493एफ	जेसी-811994एन	01 अगस्त 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	प्रेम चन्द्र यादव	4185264के	जेसी-811995डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	सर्वेश कुमार	2991412पी	जेसी-811996वाई	01 अगस्त 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	सालुन्के भरत हरि भाई	14809013डब्ल्यू	जेसी-811997एफ	01 अगस्त 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	अनिल कुमार	14809033के	जेसी-811998के	01 अगस्त 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	एस थिरुपति	14809034एम	जेसी-811999एम	01 अगस्त 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	प्रशांता मंडल	13985562एच	जेसी-812000एन	01 अगस्त 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	जरनैल सिंह	3393199एक्स	जेसी-812011ए	10 सितम्बर 2014 * 01 सितम्बर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।				
हवलदार/इन्ट जी डी	इन्द्रजीत राय	14809086एच	जेसी-812012एच	01 सितम्बर 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	भुपेन्द्र सिंह रावत	4185305एच	जेसी-812013एल	01 सितम्बर 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	मनोहर कुमार सिंह	13985630एल	जेसी-812014एन	01 सितम्बर 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	गुरपिन्दर सिंह	3393239एन	जेसी-812015डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	गौतम नायक	14809174वाई	जेसी-812016वाई	01 सितम्बर 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	एन के सथीसन	2596250एल	जेसी-812017एफ	01 सितम्बर 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	अशोक सिंह	7777415एच	जेसी-812021के	12 नवम्बर 2014 * 01 अक्टूबर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।				
हवलदार/इन्ट जी डी	गोविन्द सिंह नेगी	4185254ए	जेसी-812022एम	27 अक्टूबर 2014 * 01 अक्टूबर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।				
हवलदार/इन्ट जी डी	शेर सिंह	5451857वाई	जेसी-812023पी	02 अक्टूबर 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	शशि कुमार ए	14809051एम	जेसी-812024एक्स	01 नवम्बर 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	गुरनाम सिंह कटवाल	2484150वाई	जेसी-812025ए	01 नवम्बर 2014
हवलदार/इन्ट जी डी	अनिल कुमार शर्मा	14809205एन	जेसी-812026एच	13 नवम्बर 2014 * 01 नवम्बर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।				
हवलदार/इन्ट जी डी	राजेश कुमार	3991812एक्स	जेसी-812027एल	15 नवम्बर 2014 * 01 नवम्बर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।				
हवलदार/इन्ट जी डी	बल सिंह	1486936एन	जेसी-812028एन	19 नवम्बर 2014 * 13 नवम्बर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 13 नवम्बर 2014 से दी जाती है।				

हवलदार/इन्ट जी डी	डुंगर सिंह	4185198एम	जेसी-812029डब्ल्यू	<u>24 नवम्बर 2014</u> * 16 नवम्बर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 16 नवम्बर 2014 से दी जाती है।				
हवलदार/इन्ट जी डी	पदमनाभन जे	14809040ए	जेसी-812030एल	<u>04 दिसम्बर 2014</u> * 01 दिसम्बर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 1 दिसम्बर 2014 से दी जाती है।				
हवलदार/इन्ट जी डी	अजिथ कुमार के	14809230एम	जेसी-812031एन	01 दिसम्बर 2014

## नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी) के पद पर

हवलदार/लिपिक	अनुप सिंह	9100970एल	जेसी-811954एम	01 जुलाई 2014
हवलदार/लिपिक	गजेन्द्र सिंह नेगी	4364223डब्ल्यू	जेसी-811955पी	01 जुलाई 2014
हवलदार/लिपिक	पवन कुमार दिवेदी	5754811ए	जेसी-811956एक्स	01 जुलाई 2014
हवलदार/लिपिक	बिरेन्द्र कुमार	13755664ए	जेसी-811957ए	01 जुलाई 2014
हवलदार/लिपिक	तरुण कुमार गौतम	15383961एच	जेसी-811958एच	01 जुलाई 2014
हवलदार/लिपिक	कमलेश कुमार चौबे	5453734एल	जेसी-811959एल	01 जुलाई 2014
हवलदार/लिपिक	कोल्हे भाउ साहेब नारायण	5453742के	जेसी-811960ए	01 जुलाई 2014
हवलदार/लिपिक	उपेन्द्र सिंह	9102242के	जेसी-811961एच	01 जुलाई 2014
हवलदार/लिपिक	राम प्रसाद रवुटिया	4189113एच	जेसी-811992एच	01 अगस्त 2014
हवलदार/लिपिक	विजय कुमार	6937871वाई	जेसी-812010एक्स	<u>09 अक्टूबर 2014</u> *01 सितम्बर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।				
हवलदार/लिपिक	थियागराजन आर	4364438पी	जेसी-812018के	<u>11 नवम्बर 2014</u> *01 अक्टूबर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।				
हवलदार/लिपिक	अदाइकाला राज पी	9102248एल	जेसी-812019एम	<u>25 अक्टूबर 2014</u> *01 अक्टूबर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।				
हवलदार/लिपिक	रमेश कुमार	1589685पी	जेसी-812020एफ	<u>30 अक्टूबर 2014</u> *01 अक्टूबर 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।				

## नायब सुबेदार (टी आर एल) के पद पर

हवलदार (इन्ट जी डी)	शशि कुमार के पी	2602841एल	जेसी-812001डब्ल्यू	<u>11 अगस्त 2014</u> *15 जून 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 15 जून 2014 से दी जाती है।				

आर एच एम (टी सी एल)	आर मुथु कुमार	15680031पी	जेसी-812002वाई	<u>12 अगस्त 2014</u> *15 जून 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 15 जून 2014 से दी जाती है।				
हवलदार (टी सी एल)	अमित कुमार सिंह	15150826एल	जेसी-812003एफ	<u>11 अगस्त 2014</u> *15 जून 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 15 जून 2014 से दी जाती है।				
हवलदार (टी सी एल)	सुधाकरण	6943209ए	जेसी-812004के	<u>17 जून 2014</u> *15 जून 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 15 जून 2014 से दी जाती है।				
हवलदार (टी सी एल)	पाटिल प्रशांत अशोक	6947142के	जेसी-812005एम	<u>11 अगस्त 2014</u> *15 जून 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 15 जून 2014 से दी जाती है।				
आर एच एम (टी सी एल)	अनिश के राजेन्द्रन	13624188डब्ल्यू	जेसी-812006पी	<u>17 जून 2014</u> *15 जून 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 15 जून 2014 से दी जाती है।				
आर एच एम (टी सी एल)	रेजीमोन आर	15677919एम	जेसी-812007एक्स	<u>17 जून 2014</u> *15 जून 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 15 जून 2014 से दी जाती है।				
आर एच एम (टी सी एल)	एस के शेरव	14830732एच	जेसी-812008ए	<u>17 जून 2014</u> *15 जून 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 15 जून 2014 से दी जाती है।				
हवलदार (टी सी एल)	हरीश सिंह	4199851ए	जेसी-812009एच	<u>11 अगस्त 2014</u> *15 जून 2014
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 15 जून 2014 से दी जाती है।				

यू के तिवारी  
डैस्क अधिकारी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 197, दिनांक 29 जुलाई 2015— राष्ट्रपति सहर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं—

कार्यकारी मेजर जनरल से स्थायी मेजर जनरल

नं. रैंक तथा नाम

मूल रैंक प्रदान किए जाने की तारीख

आई सी-42888 पी, मेजर जनरल

22.04.2014

अजय गुप्ता, आर्मड कोर



कार्यकारी एयर वाईस मार्शल से स्थायी एयर वाईस मार्शल  
एयर वाईस मार्शल वाई राधाकृष्णा 24.04.2014  
(16544-टी), ए०ई०(एम)

कार्यकारी रियर एडमिरल से स्थायी रियर एडमिरल  
रियर एडमिरल रंजीत सिंह 22.04.2014  
(50993-टी), इलैक्ट्रिक

बी.के. मिश्रा  
अतिरिक्त निदेशक कार्मिक-एएफ

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 198, दिनांक 30 जुलाई 2015— राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को वर्तमान ग्रेड से उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख (पूर्वाहन) से अगले ग्रेड में सहर्ष पदोन्नत करते हैं:-

नाम श्री / श्रीमति / सुश्री / कु.	प्रयोगशाला / स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु.)	पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
एस पलानीचामी (अनु०जा०)	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-7600 / -	03.09.2014
के प्रभाकर राव	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-7600 / -	01.09.2014
एन मोहन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
के रामानन (अनु०जा०)	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
के वीरामनी (अनु०जा०)	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
वी थमाराई सेलवन (अनु०जा०)	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
डी परथासारथी	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
एन थनुलिंगम नादर	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014
वी मुथुचामी (अनु०जा०)	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600 / -	01.09.2014

ए पन्चाक्षरम	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
एम पचिअप्पन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
सी थिरुनावुक्कारासु	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
एन सिवानन्दन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
के षनमुगासुन्दरम्	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
एस पलानी	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
पी सेकर	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
बी के विजयकुमार (अनु०जा०)	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
के थिरुनावुक्कारासु	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
के गौतमन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
बी रामनाथन	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
वी पिचेया	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
एन रामू	सी०वी०आर०डी०ई०	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014

आर मनोहर	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
वी मनी (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
ए वेल्लैचामी (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
एम रमेश कुमार	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-5400/-	01.09.2014
एम इडविन थंगराज	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
के हरीकृष्णन	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एन इलयाराजा	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एन रेखा	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
वी आर प्रासीना	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
आर गोपीनाथ	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
पी के गोपी	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
दुराई मुरुगन एन	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
के एम शिजू	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014

जे एस हरीकृष्णन	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एस सुजीत	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
सी सीएन	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
पंकज कुमार शर्मा	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
वी नित्यानन्दम	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
सी नागराजन (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
पी सुब्रामनी (अ0पि0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
आर रवि (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
के शिवशंकर (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एम चक्रवर्ती (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
आर सुन्दरराजन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
डी डेविड जियाकुमार	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
जी वेंकटरमन (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014

जी ज्ञानाशेकर	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एन सुब्रामणियन (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एम अनबाझगन (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एल चेल्लाचामी (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
ए जी राजा (अनु0जा0)	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
ए रिचर्ड अचारिएम	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
के वीरमुथू	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
एस अधिअमन	सी0वी0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
वी के अरोड़ा	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-7600/-	01.09.2014
विपिन चन्द्रा	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-7600/-	01.09.2014
भाग चन्द	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600/-	01.09.2014
बी बी नौटियाल	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600/-	01.09.2014
वीरेन्द्र सिंह (अनु0जा0जा0)	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ ग्रेड वेतन-6600/-	01.09.2014

प्रभात कुमार	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—बी	तकनीकी अधिकारी—सी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—6600 /—	01.09.2014
संजय कुमार (अनु0जा0)	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
मेनिका टंडन	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
दिनेश कुमार शर्मा	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
प्रदीप सिंह पनवर	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
जमना प्रसाद (अनु0जा0)	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी—ए	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
धीरज लाल डबराल	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी अधिकारी	तकनीकी अधिकारी—बी	वेतन बैंड—3 (15600—39100)+ ग्रेड वेतन—5400 /—	01.09.2014
अरुण कुमार (अ0पि0जा0)	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
मनोज कुमार जोशी	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
सचिन कुमार धीमान (अ0पि0जा0)	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
रवि कान्त	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
दिव्या कछवाह	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014
कृष्ण कुमार सिंह	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक—बी	तकनीकी अधिकारी—ए	वेतन बैंड—2 (9300—34800)+ ग्रेड वेतन—4600 /—	01.09.2014

प्रावीन पराशर शर्मा	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
पवन कुमार दुबे	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
नम्रता जोशी	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
सुशील कुमार	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
जोधराज मीणा (अनु0ज0जा0)	आई0आर0डी0ई0	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी-ए	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
सत्यवीर सिंह (अनु0जा0)	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
ऋषिपाल (अनु0जा0)	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
इन्द्रपाल सिंह (अनु0जा0)	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
विजय कुमार जोशी	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
प्रदीप कुमार	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014
सत्य नारायण डंगवाल	आई0आर0डी0ई0	तकनीकी सहायक-बी	तकनीकी अधिकारी	वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ ग्रेड वेतन-4600/-	01.09.2014

आदर्श कुमार,  
संयुक्त निदेशक  
(कार्मिक-टी0सी0)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 199, दिनांक 31 जुलाई 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं —

श्रीमती रजनी चावला को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 08.02.2011 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु0 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु0 4600 पर ।

श्री सी बी कुलकर्णी को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित)के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.01.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु0 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु0 4600 पर ।

श्री एम आर दास को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 25.03.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु 4600 पर

श्री एन श्रीनिवास को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.01.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु 4600 पर ।

श्रीमती हरमिन्द्र कौर को वरिष्ठ निजी सचिव, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु 4800 पर ।

श्रीमती मीना सक्सेना को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-॥, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 10.04.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु 5400 पर ।

श्रीमती टी सुलोचना को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-॥, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.06.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु 5400 पर

श्री बी एफ सुतार को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-॥, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.06.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु 5400 पर

श्री आलोक मेहता को असैनिक सुरक्षा अधिकारी-॥, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 17.06.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु 5400 पर ।

श्री ए एम खेडलेकर को लेखाधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 21.08.2009 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु 4600 पर ।

श्री दौलत सिंह जैरवार को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-॥, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.01.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु 5400 पर ।

श्रीमती रजनी चावला को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-॥, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.01.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु 5400 पर ।

श्री करन सिंह ग्वाल को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-॥, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 01.01.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु 6600 पर ।

श्रीमती जी पदमीनी को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-॥, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 02.04.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु 5400 पर ।

राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई पदों तथा तारीख से डीआरडीओ में सहर्ष (ग्रुप बी) राजपत्रित पदोन्नतियां करते हैं :-

श्री गणेश थापा	प्रशासनिक अधिकारी	आईआरडीई, देहरादून	03.11.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4600
श्रीमती एच बी वरलीकर	प्रशासनिक अधिकारी	एनएमआरएल, अंबरनाथ	01.04.2015	पीबी2] ग्रेड पे 4600
श्रीमती समीना ए शेख	निजी सचिव	वीआरडीई, अहमदनगर	16.04.2015	पीबी2] ग्रेड पे 4600
श्री के अरविन्दाकक्षन	निजी सचिव	एनपीओएल, कोच्चि	04.05.2015	पीबी2] ग्रेड पे 4600
श्री एस दक्षिणा मूर्ति	प्रशासनिक अधिकारी	जीटीआरई, बेंगलोर	05.05.2015	पीबी2] ग्रेड पे 4600
कुमारी एस टी बोस	प्रशासनिक अधिकारी	एआरडीई, पूणे	05.05.2015	पीबी2] ग्रेड पे 4600



श्रीमती मोहिनी नरसिम्हा	निजी सचिव	एलआरडीई, बेंगलोर	01.06.2015	पीबी2] ग्रेड पे 4600
श्री मोहम्मद सेईफुल्ला	निजी सचिव	एलआरडीई, बेंगलोर	01.06.2015	पीबी2] ग्रेड पे 4600
श्रीमती वनीता कपूर	निजी सचिव	डीजी (मेड एण्ड कोस) डीआरडीओ मुख्यालय	01.07.2015	पीबी2] ग्रेड पे 4600

राजीव रंजन सिन्हा  
उप निदेशक (कार्मिक)

सेना सचिव शाखा

सं. 200, दिनांक 3 अगस्त 2015—रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राजपत्र दिनांक 28 मार्च 2015 में "नियमित सेना, स्थायी कमिशन, ब्रिगेडियर के मूल रैंक में" शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन करता है :-

नियमित सेना  
स्थायी कमिशन  
ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

के लिए

आई सी-41485 ब्रिग एस सांगवान, ए एस सी	01.08.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31.08.09 से दी जायेगी।
--	---

पढ़ें

आई सी-41485 ब्रिग एस सांगवान, आम्ड	01.08.13 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31.08.09 से दी जायेगी।
---------------------------------------	---

एस सी खनसीली  
निदेशक एम एस (एक्स)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th August 2015

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 193, dated 23rd July 2015—The President is pleased to make the following appointment :—

Sh. UVP Sivaramakrishna to be Construction Engineer, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 06 Dec 2013 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs 6,600/-.

Sh. Hemanga Das to be Construction Engineer, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 09 July 2013 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs 6,600/-.

Sh. Debraj Banerjee to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 05.03.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

Sh. Sanjeev Kumar Seth to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 16.04.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

Sh. S Sri Ramana to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 04.06.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

Sh. Menchu Srinivas to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 30.04.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

RAJEEV RANJAN SINHA  
Dy Director(Pers)

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 194, dated 24th July 2015—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officers : —

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
TO BE SUBSTANTIVE LT GENERAL

IC-34765	A/LT GEN	IQBAL SINGH SINGHA, VSM	RAJ RIF	01.07.13
----------	----------	-------------------------	---------	----------

## TO BE SUBSTANTIVE MAJ GEN

IC-39283	A/MAJ GEN	KANWAL KUMAR	ARMY AVN	01.12.14 with seniority from 11.04.11 without effect on pay and pension.
IC-35501	A/MAJ GEN	KA MUTHANNA, SM	GARH RIF	23.01.12 with seniority from 13.05.10 without effect on pay and pension.
IC-38289	A/MAJ GEN	SS JAKHAR	RAJPUT	01.02.14 with seniority from 12.10.10 without effect on pay and pension.
IC-38405	A/MAJ GEN	DN SINGH	ARTY	29.01.15 with seniority from 01.10.11 without effect on pay and pension.
IC-38711	A/MAJ GEN	VINOD KUMAR, VSM	MECH INF	07.03.14 with seniority from 01.10.11 without effect on pay and pension.
IC-38720	A/MAJ GEN	AS CHOWDHARY	ARTY	05.08.13 with seniority from 01.10.11 without effect on pay and pension.
IC-38758	A/MAJ GEN	RAM KUMAR KOHLI	ASC	07.02.14 with seniority from 02.10.11 without effect on pay and pension.

IC-39299	A/MAJ GEN	JOYDEEP BHATI	MECH INF	01.04.14 with seniority from 02.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39321	A/MAJ GEN	AK SHUKLA, VSM	RAJ RIF	01.04.14 with seniority from 02.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39366	A/MAJ GEN	B CHAKRAVARTY	ARTY (GC)	01.09.13 with seniority from 02.10.11 without effect on pay and pension.
IC-38796	A/MAJ GEN	SUNIL YADAV, YSM	JAK RIF	02.05.14 with seniority from 03.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39229	A/MAJ GEN	D AGNIHOTRI	MECH INF	19.05.14 with seniority from 03.10.11 without effect on pay and pension.
IC-37769	A/MAJ GEN	VG RAMAKRISHNAN	SIGS	01.09.13 with seniority from 03.10.11 without effect on pay and pension.
IC-37793	A/MAJ GEN	NAVNEET KHANNA, VSM	JAG	01.09.13 with seniority from 03.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39434	A/MAJ GEN	MS KOHLI	14 HORSE	09.10.13 with seniority from 04.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39435	A/MAJ GEN	SANJIV BAJAJ	ENGRS(GC)	19.05.14 with seniority from 04.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39436	A/MAJ GEN	SK SAINI, YSM, VSM	JAT	25.10.13 with seniority from 04.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39437	A/MAJ GEN	ST UPASANI, SM, VSM	JAT	07.11.13 with seniority from 04.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39443	A/MAJ GEN	MS KHARA	ARTY	01.11.13 with seniority from 05.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39445	A/MAJ GEN	SS HASABNIS	ENGRS (GC)	22.11.13 with seniority from 05.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39450	A/MAJ GEN	AP SINGH	ARMD	19.05.14 with seniority from 05.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39457	A/MAJ GEN	MS GHURA, VSM	RAJ RIF	19.05.14 with seniority from 05.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39458	A/MAJ GEN	AP DERE	ARMD	01.12.13 with seniority from 06.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39464	A/MAJ GEN	THAKUR MH	ASC	01.12.13 with seniority from 06.10.11 without effect on pay and pension.

IC-39465	A/MAJ GEN	AJS BEDI, VSM	GARH RIF	01.01.14 with seniority from 06.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39472	A/MAJ GEN	JK MARWAL	GREN	19.05.14 with seniority from 06.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39492	A/MAJ GEN	ANIL CHAUHAN, VSM	11 GR	01.01.14 with seniority from 07.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39500	A/MAJ GEN	CE FERNANDES, SM	BIHAR	01.07.14 with seniority from 07.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39501	A/MAJ GEN	AP SINGH	AAD	01.01.14 with seniority from 07.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39512	A/MAJ GEN	NEERAJ VERMA	ARTY	01.01.14 with seniority from 08.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39521	A/MAJ GEN	YT JAIN	ARTY(GC)	01.01.14 with seniority from 08.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39522	A/MAJ GEN	JS NEGI, VSM**	DOGRA	01.02.14 with seniority from 08.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39569	A/MAJ GEN	PRS CHAUDHARY	ARTY	01.02.14 with seniority from 08.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39581	A/MAJ GEN	BALRAJ SINGH	ENGRS	21.02.14 with seniority from 09.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39591	A/MAJ GEN	SUNIL KUMAR	ARTY	24.02.14 with seniority from 09.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39598	A/MAJ GEN	G JAISHANKAR	MAHAR	01.07.14 with seniority from 09.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39603	A/MAJ GEN	JS PATHANIA	AOC	01.03.14 with seniority from 10.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39607	A/MAJ GEN	IS GHUMAN	GUARDS	01.03.14 with seniority from 10.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39609	A/MAJ GEN	AJAY OHRI	KUMAON	01.07.14 with seniority from 10.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39621	A/MAJ GEN	RK BHARDWAJ	ARTY(GC)	01.07.14 with seniority from 10.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39624	A/MAJ GEN	PM BALI, VSM	PUNJAB	01.04.14 with seniority from 11.10.11 without effect on pay and pension.

IC-39643	A/MAJ GEN	RAJIV EDWARDS	ARMD	01.04.14 with seniority from 11.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39655	A/MAJ GEN	HEMANT JONEJA	8 GR	01.08.14 with seniority from 11.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39673	A/MAJ GEN	JS YADAV, SM	ARMD	04.08.14 with seniority from 12.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39675	A/MAJ GEN	VIJAY SINGH, SM	9 GR	01.05.14 with seniority from 12.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39676	A/MAJ GEN	DVS RANA, SM, VSM	JAK LI	01.05.14 with seniority from 12.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39682	A/MAJ GEN	SK SINGH	ARTY	01.05.14 with seniority from 12.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39709	A/MAJ GEN	SS SALUJA	AOC	01.05.14 with seniority from 13.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39780	A/MAJ GEN	KK PANT	RAJ RIF	04.08.14 with seniority from 13.10.11 without effect on pay and pension.
IC-41456	A/MAJ GEN	RK ANAND, VSM	SIGS	01.05.14 with seniority from 13.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39864	A/MAJ GEN	VD DOGRA	17 HORSE	01.05.14 with seniority from 14.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39865	A/MAJ GEN	MICHAEL MATHEWS, VSM	ENGRS	12.05.14 with seniority from 14.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39868	A/MAJ GEN	SUNIL SRIVASTAVA	ARTY (GC)	01.06.14 with seniority from 14.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39870	A/MAJ GEN	SK MATHUR	EME	05.07.14 with seniority from 14.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39871	A/MAJ GEN	SK UPADHYA, SM	GARH RIF	01.06.14 with seniority from 15.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39872	A/MAJ GEN	ANIL KAPOOR, VSM	EME	15.07.14 with seniority from 15.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39874	A/MAJ GEN	TARANJIT SINGH	ARMD	27.06.14 with seniority from 15.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39879	A/MAJ GEN	AK DHAR, SM**	PARA	27.06.14 with seniority from 15.10.11 without effect on pay and pension.

IC-39888	A/MAJ GEN	ASHWINI SHARMA	EME	11.10.14 with seniority from 16.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39898	A/MAJ GEN	DS AHUJA	ENGRS	01.07.14 with seniority from 16.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39909	A/MAJ GEN	PS SANDHU	MECH INF	01.07.14 with seniority from 16.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39929	A/MAJ GEN	SARANJEET SINGH	SIKH LI	01.07.14 with seniority from 16.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39930	A/MAJ GEN	VPS BHAKUNI, VSM	DOGRA	04.08.14 with seniority from 17.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39943	A/MAJ GEN	AJAY WADHWA, VSM	ENGRS	08.09.14 with seniority from 17.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39956	A/MAJ GEN	GS SANGHA, SM, VSM	GREN	01.07.14 with seniority from 17.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39970	A/MAJ GEN	SANDEEP APTE	ARTY	01.07.14 with seniority from 18.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39977	A/MAJ GEN	NS RAO	ARTY	01.07.14 with seniority from 18.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39988	A/MAJ GEN	MK YADAV	GARH RIF	19.09.14 with seniority from 18.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39992	A/MAJ GEN	ANOOP KUMAR V	MARATHA LI	01.07.14 with seniority from 18.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39995	A/MAJ GEN	SS MAMAK	ARTY	12.09.14 with seniority from 19.10.11 without effect on pay and pension.
IC-39996	A/MAJ GEN	RAJEEV SABHERWAL	SIGS	11.07.14 with seniority from 19.10.11 without effect on pay and pension.
IC-40007	A/MAJ GEN	YVK MOHAN, SM	11 GR	01.08.14 with seniority from 19.10.11 without effect on pay and pension.
IC-40022	A/MAJ GEN	AK BHATT, SM, VSM	9 GR	01.09.14 with seniority from 19.10.11 without effect on pay and pension.
IC-40025	A/MAJ GEN	GR SINGH	AOC	01.09.14 with seniority from 20.10.11 without effect on pay and pension.
IC-40028	A/MAJ GEN	SPS KOHLI	ENGRS	08.09.14 with seniority from 20.10.11 without effect on pay and pension.

IC-40031	A/MAJ GEN	SANJEEV KANAL	ARTY	01.09.14 with seniority from 20.10.11 without effect on pay and pension.
IC-40098	A/MAJ GEN	DUSHYANT SINGH	MARATHA LI	01.09.14 with seniority from 20.10.11 without effect on pay and pension.
IC-40133	A/MAJ GEN	SC MESTON, VSM	MAHAR	08.09.14 with seniority from 21.10.11 without effect on pay and pension.
IC-40156	A/MAJ GEN	SANDEEP SHARMA, VSM	SIGS	01.10.14 with seniority from 21.10.11 without effect on pay and pension.
IC-40235	A/MAJ GEN	R GOPAL	8 GR	01.10.14 with seniority from 21.10.11 without effect on pay and pension.
IC-40240	A/MAJ GEN	V NANGIA	KUMAON	16.10.14 with seniority from 22.10.11 without effect on pay and pension.

## TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIER

IC-45367	A/BRIG	INDERJIT SINGH	MECH INF	01.02.13	01.02.13 with seniority from 01.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43016	A/BRIG	S SHARMA	MECH INF	22.02.13	22.02.13 with seniority from 01.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43037	A/BRIG	DEVINDER YADAV	INT	31.05.13	31.05.13 with seniority from 01.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44873	A/BRIG	ADARSH BHARDWAJ	EME	01.02.13	01.02.13 with seniority from 01.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45493	A/BRIG	RAJEEV KAPOOR	EME	01.04.14	01.04.14 with seniority from 02.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45517	A/BRIG	RAKESH	JAG	25.01.13	25.01.13 with seniority from 02.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43220	A/BRIG	SPS SIDHU	MECH INF	01.03.13	01.03.13 with seniority from 02.06.11 without effect on pay and pension.
AIC-43331	A/BRIG	SC PANWAR, SM	SIKH	01.08.13	01.08.13 with seniority from 02.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43352	A/BRIG	NDGD JOSHI, SM	INT	31.05.13	31.05.13 with seniority from 03.06.11 without effect on pay and pension.
IC-47496	A/BRIG	DB PANY	EME	01.01.13	13.01.13 with seniority from 03.06.11 without effect on pay and pension.

IC-45531	A/BRIG	BG JAGADEESH	EME	01.02.13	01.02.13 with seniority from 03.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45541	A/BRIG	TPJ CHANDRAN	SIKH	05.10.12	16.01.13 with seniority from 03.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45549	A/BRIG	S SETHI	AAD	06.04.13	06.04.13 with seniority from 04.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45555	A/BRIG	MONISH DATTA	JAK RIF	14.12.12	20.01.13 with seniority from 04.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45564	A/BRIG	DINESH CHADHA	ARTY	03.08.12	20.01.13 with seniority from 04.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45582	A/BRIG	KP SINGH	MADRAS	14.12.12	01.02.13 with seniority from 04.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45583	A/BRIG	JN PANDEY	ARTY	03.08.12	01.02.13 with seniority from 05.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43655	A/BRIG	K VINOD KUMAR	SIGS	25.01.13	01.02.13 with seniority from 05.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43657	A/BRIG	PD NAIDU	ENGRS	22.03.13	22.03.13 with seniority from 05.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43658	A/BRIG	HARI SINGH	ENGRS	29.03.13	29.03.13 with seniority from 05.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43667	A/BRIG	KS BRAR	ARMD	18.01.13	27.02.13 with seniority from 06.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43668	A/BRIG	SUNIL KUMAR NV	RAJPUT	14.12.12	01.03.13 with seniority from 06.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43669	A/BRIG	SP SINGH, SM	GREN	14.12.12	01.03.13 with seniority from 06.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43673	A/BRIG	GURJAP SINGH	RAJ RIF	14.12.12	01.03.13 with seniority from 06.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43676	A/BRIG	RAJINDER SINGH	DOGRA	14.12.12	01.03.13 with seniority from 07.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43679	A/BRIG	GPS SISODIYA	PUNJAB	14.12.12	04.03.13 with seniority from 07.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43682	A/BRIG	AK SAMANTARA, SM**	MADRAS	14.12.12	08.03.13 with seniority from 07.06.11 without effect on pay and pension.



IC-43683	A/BRIG	N KUMAR	ARTY(GC)	03.08.12	08.03.13 with seniority from 07.06.11 without effect on pay and pension.
IC43686	A/BRIG	SANJIV RAI	SIKH LI	14.12.12	08.03.13 with seniority from 08.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43687	A/BRIG	VIVEK SHARMA, VSM	JAT	14.12.12	15.03.13 with seniority from 08.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43689	A/BRIG	PS BAJWA	MAHAR	14.12.12	18.03.13 with seniority from 08.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43690	A/BRIG	HS DHODI	ARMD	22.03.13	22.03.13 with seniority from 08.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43693	A/BRIG	RAVINDER SINGH DAHIYA	ARMD	22.03.13	25.03.13 with seniority from 09.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43701	A/BRIG	MS SHARMA	ARTY	03.08.12	29.03.13 with seniority from 09.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43702	A/BRIG	P RAHUL	AAD	21.05.13	21.05.13 with seniority from 09.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43703	A/BRIG	RK MATHUR	ARTY	03.08.12	01.04.13 with seniority from 09.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43704	A/BRIG	SQ AHMED	ARTY	03.08.12	01.04.13 with seniority from 10.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43710	A/BRIG	TK AICH	MADRAS	14.12.12	01.04.13 with seniority from 10.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43711	A/BRIG	D MALHOTRA	SIGS	08.02.13	01.04.13 with seniority from 10.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43712	A/BRIG	ABK SIBAL	ENGRS	29.03.13	01.04.13 with seniority from 10.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43717	A/BRIG	MUKUND SHARMA	ENGRS	29.03.13	01.04.13 with seniority from 11.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43722	A/BRIG	DK SINGH	DOGRA	14.12.12	01.04.13 with seniority from 11.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43723	A/BRIG	HK PANT	ASC	16.12.11	01.04.13 with seniority from 11.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43725	A/BRIG	MK KATIYAR	RAJPUT	14.12.12	01.04.13 with seniority from 11.06.11 without effect on pay and pension.

IC-43735	A/BRIG	JC TALUKDAR	ARTY	03.08.12	01.04.13 with seniority from 12.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43737	A/BRIG	RAJEEV THAPAR	SIKH LI	14.12.12	01.04.13 with seniority from 12.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43746	A/BRIG	ADOSH KUMAR	ARTY	28 .09.12	01.04.13 with seniority from 12.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43756	A/BRIG	SANJEEV LANGEH, SM	JAK RIF	08.03.13	01.04.13 with seniority from 13.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43762	A/BRIG	NIREN BHARTI, SM	JAK LI	15.12.12	01.04.13 with seniority from 13.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43767	A/BRIG	R SRIVASTAVA	AAD	22.07.13	22.07.13 with seniority from 13.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43780	A/BRIG	DIPAK BANERJEE	GARH RIF	15.12.12	01.05.13 with seniority from 14.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43782	A/BRIG	RP SHARMA	SIKH	15.12.12	01.05.13 with seniority from 14.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43796	A/BRIG	SAMIR GUPTA	ARTY	28 .09.12	01.05.13 with seniority from 14.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43810	A/BRIG	VASUDHESH ARYA	ARTY	28 .09.12	01.05.13 with seniority from 14.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43820	A/BRIG	GRS REDDY, SM	JAK RIF	15.12.12	01.05.13 with seniority from 15.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43823	A/BRIG	SATINDER SINGH	MAHAR	15.12.12	01.05.13 with seniority from 15.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43835	A/BRIG	I CHATTERJEE	GARH RIF	15.12.12	01.05.13 with seniority from 15.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43842	A/BRIG	MK DAS, SM**, VSM	JAK LI	20.12.12	01.05.13 with seniority from 15.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43843	A/BRIG	ADISH YADAV	RAJ RIF	20.12.12	01.05.13 with seniority from 16.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43856	A/BRIG	MG SEKARAN, SM	ARTY	28.09.12	01.05.13 with seniority from 16.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43858	A/BRIG	MANJIT KUMAR	SIGS	08.02.13	01.05.13 with seniority from 16.06.11 without effect on pay and pension.

IC-43859	A/BRIG	HS GILL	ASC	16.12.11	01.05.13 with seniority from 16.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43875	A/BRIG	VIJAY MEHTA, SM	JAT	20.12.12	14.06.13 with seniority from 17.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43877	A/BRIG	R DEWAN	SIKH	20.12.12	18.06.13 with seniority from 17.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43914	A/BRIG	RK MAHNA, SM	KUMAON	20.12.12	29.06.13 with seniority from 17.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43944	A/BRIG	VK BAHREE	ARMY AVN	09.12.13	09.12.13 with seniority from 18.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43954	A/BRIG	SK SANGWAN, VSM	MADRAS	20.12.12	01.07.13 with seniority from 18.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43981	A/BRIG	SHARAD KAPUR, SM	RAJPUT	20.12.12	01.07.13 with seniority from 18.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44014	A/BRIG	SV SINGH	AEC	01.02.14	01.02.14 with seniority from 18.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43709	A/BRIG	BS SANDHU	ENGRS	04.04.13	01.07.13 with seniority from 19.06.11 without effect on pay and pension.
IC-43684	A/BRIG	JB CHAUDHARI, SM	GUARDS	20.12.12	04.07.13 with seniority from 19.06.11 without effect on pay and pension.
IC-47938	A/BRIG	RK SHARMA, SM	ENGRS	29.03.13	19.07.13 with seniority from 19.06.11 without effect on pay and pension.
IC-47945	A/BRIG	SP SINGH	EME	01.02.13	26.07.13 with seniority from 19.06.11 without effect on pay and pension.
IC-47960	A/BRIG	DHIRAJ MOHAN	ENGRS	29.03.13	01.08.13 with seniority from 20.06.11 without effect on pay and pension.
IC-47962	A/BRIG	PKG MISHRA	ENGRS	02.04.13	01.08.13 with seniority from 20.06.11 without effect on pay and pension.
IC-47979	A/BRIG	PS RANA	EME	01.03.13	01.08.13 with seniority from 20.06.11 without effect on pay and pension.
IC-47984	A/BRIG	SK KATARIA	ENGRS	29.03.13	05.08.13 with seniority from 20.06.11 without effect on pay and pension.
IC-47994	A/BRIG	JK RAO	ENGRS	01.07.13	08.08.13 with seniority from 21.06.11 without effect on pay and pension.

IC-47999	A/BRIG	SANDEEP BHALLA, VSM	EME	29.03.13	23.08.13 with seniority from 21.06.11 without effect on pay and pension.
IC-47954	A/BRIG	AMRIT LAL	SIGS	01.03.13	01.09.13 with seniority from 21.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45619	A/BRIG	SS KATARIYA	EME	26.07.13	01.09.13 with seniority from 22.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45621	A/BRIG	CHARANBIR SINGH	MECH INF	15.03.13	01.09.13 with seniority from 22.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45622	A/BRIG	VINAY BAHL	GARH RIF	20.12.12	01.09.13 with seniority from 22.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45623	A/BRIG	S NAGPAL	EME	01.09.13	01.09.13 with seniority from 22.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45641	A/BRIG	R SACHDEV	DOGRA	20.12.12	01.09.13 with seniority from 23.06.11 without effect on pay and pension.
IC-45642	A/BRIG	VG REDDY, SC	JAT	20.12.12	01.09.13 with seniority from 23.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44038	A/BRIG	H DHARMARAJAN, SM	ENGRS (GC)	01.11.13	01.11.13 with seniority from 23.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44039	A/BRIG	S JOSE	AAD	01.11.13	01.11.13 with seniority from 23.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44040	A/BRIG	RS RAWAT	AOC	18.10.13	18.10.13 with seniority from 24.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44041	A/BRIG	M INDRABALAN	ENGRS	01.11.13	01.11.13 with seniority from 24.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44044	A/BRIG	DHIRAJ SETH	ARMD	24.05.13	09.09.13 with seniority from 24.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44046	A/BRIG	JS NANDA, SM	PARA	20.12.12	10.09.13 with seniority from 24.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44048	A/BRIG	PS JAISWAL	ENGRS	01.11.13	01.11.13 with seniority from 25.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44051	A/BRIG	DV SINGH	MECH INF	01.07.13	20.09.13 with seniority from 25.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44055	A/BRIG	VM CHANDRAN	ARMD	17.06.13	22.09.13 with seniority from 25.06.11 without effect on pay and pension.

IC-44056	A/BRIG	RS YADAV	EME	22.11.13	22.11.13 with seniority from 25.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44057	A/BRIG	RAJIV MANKOTIA, VSM	4 GR	20.12.12	01.10.13 with seniority from 26.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44062	A/BRIG	A VERMA	RAJ RIF	20.12.12	01.10.13 with seniority from 26.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44063	A/BRIG	A ARORA	JAK RIF	20.12.12	01.10.13 with seniority from 26.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44065	A/BRIG	MANJINDER SINGH	MADRAS	24.12.12	01.10.13 with seniority from 26.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44067	A/BRIG	AN JHA	JAT	01.03.13	01.10.13 with seniority from 27.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44074	A/BRIG	SS BAKSHI	ARTY	28.09.12	09.10.13 with seniority from 27.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44080	A/BRIG	RK SINGH	RAJPUT	01.03.13	11.10.13 with seniority from 27.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44082	A/BRIG	ARS KAHLON	ARMD	13.06.13	13.10.13 with seniority from 27.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44083	A/BRIG	SANJAY PURI	GARH RIF	01.03.13	25.10.13 with seniority from 28.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44088	A/BRIG	RAJWANT SINGH, SM	GRENADI-ERS	01.03.13	31.10.13 with seniority from 28.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44090	A/BRIG	V DHIMAN	ARTY	28 .09.12	01.11.13 with seniority from 28.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44095	A/BRIG	AK KASHID	ARTY	28 .09.12	01.11.13 with seniority from 28.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44096	A/BRIG	AKASH POPLI	EME	01.05.14	01.05.14 with seniority from 29.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44098	A/BRIG	S MAHAJAN	ASC	16.12.11	01.11.13 with seniority from 29.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44106	A/BRIG	NITIN RAM INDURKAR	INF	01.03.13	08.11.13 with seniority from 29.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44117	A/BRIG	HS JAMWAL	ASC	12.12.11	11.11.13 with seniority from 29.06.11 without effect on pay and pension.

IC-44128	A/BRIG	ARUN NAIR	JAT	01.03.13	15.11.13 with seniority from 30.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44129	A/BRIG	S RANDEV	ASC	01.03.12	01.03.12 with seniority from 30.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44132	A/BRIG	SURESH CHANDRA TANDI	AOC	18.10.13	15.11.13 with seniority from 30.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44136	A/BRIG	RAVI DIMRI	KUMAON	01.03.13	22.11.13 with seniority from 30.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44143	A/BRIG	PAWAN BAJAJ	DOGRA	01.03.13	22.11.13 with seniority from 01.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44149	A/BRIG	RK SINGH	SIKH	01.03.13	28.11.13 with seniority from 01.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44153	A/BRIG	AM MADAN	PUNJAB	01.03.13	01.12.13 with seniority from 01.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44173	A/BRIG	A TRIPATHI	ASC	11.05.12	01.12.13 with seniority from 01.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44191	A/BRIG	SS DHADWAL	DOGRA	01.03.13	17.12.13 with seniority from 02.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44193	A/BRIG	RANBIR SINGH	RAJPUT	01.03.13	20.12.13 with seniority from 02.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44200	A/BRIG	DEEPAK SAINI	DOGRA	01.03.13	20.12.13 with seniority from 02.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44202	A/BRIG	ARVIND KAPOOR	ARMD	01.10.13	30.12.13 with seniority from 03.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44239	A/BRIG	PM SINGH	ASC	18.05.12	30.12.13 with seniority from 03.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44256	A/BRIG	KB YADAVA	PUNJAB	08.03.13	01.01.14 with seniority from 03.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44257	A/BRIG	AK TRIPATHI	GRENADI-ERS	08.03.13	01.01.14 with seniority from 04.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44258	A/BRIG	GIRISH SURI	SIGS	22.03.13	01.01.14 with seniority from 04.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44263	A/BRIG	DEEPAK TYAGI	SIGS	22.03.13	01.01.14 with seniority from 04.07.11 without effect on pay and pension.

IC-44280	A/BRIG	JS SAMYAL	ARMD	01.10.13	01.01.14 with seniority from 04.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44293	A/BRIG	KS DALAL	SIGS	22.03.13	01.01.14 with seniority from 05.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44316	A/BRIG	AK PANDEY	ASC	01.08.12	01.01.14 with seniority from 05.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44330	A/BRIG	MM RAMCHANDRA	JAK LI	08.03.13	01.01.14 with seniority from 05.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44409	A/BRIG	VENU GOPAL	AOC	01.01.14	01.01.14 with seniority from 06.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44261	A/BRIG	BRIJ GOPAL, SM	INF	08.03.13	01.01.14 with seniority from 06.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44211	A/BRIG	IM LAMBA	ARTY	28.09.12	01.01.14 with seniority from 06.07.11 without effect on pay and pension.
IC44272	A/BRIG	GPS VIRK	ARTY	28.09.12	01.01.14 with seniority from 06.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44275	A/BRIG	P RAMESH, VSM	ARTY	04.06.13	01.01.14 with seniority from 07.07.11 without effect on pay and pension.
IC-48476	A/BRIG	KK NAYAK	SIGS	22.03.13	01.01.14 with seniority from 07.07.11 without effect on pay and pension.
IC-43246	A/BRIG	SK KURELAY	SIGS	01.07.12	19.10.12 with seniority from 28.10.10 without effect on pay and pension.
IC-41628	A/BRIG	G VENU	JAK RIF	01.07.14	01.07.14 with seniority from 10.09.09 without effect on pay and pension.
IC-45672	A/BRIG	TARUN MADAN	EME	24.10.14	24.10.14 with seniority from 23.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44099	A/BRIG	N VARSHNEY	EME	01.06.14	01.06.14 with seniority from 29.06.11 without effect on pay and pension.
IC-44218	A/BRIG	AJAY MALIK	EME	01.07.14	01.07.14 with seniority from 03.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44277	A/BRIG	MS SHERGILL	AOC	14.06.14	14.06.14 with seniority from 04.07.11 without effect on pay and pension.
IC-44346	A/BRIG	T JAGGI	EME	01.08.14	01.08.14 with seniority from 05.07.11 without effect on pay and pension.

IC-48480	A/BRIG	MB SHASHIDHAR	ENGRS	01.09.14	01.09.14 with seniority from 07.07.11 without effect on pay and pension.
IC-48427	A/BRIG	ARVIND WALIA	ENGRS	01.09.14	01.09.14 with seniority from 07.07.11 without effect on pay and pension.
IC-48502	A/BRIG	ANIL SINGH	ENGRS	01.09.14	01.09.14 with seniority from 08.07.11 without effect on pay and pension.
SL-04657	A/BRIG	JP SINHA	SL(RO)	01.07.13	01.07.13
SL-02995	A/BRIG	VS KANDARI, VSM	SL(APTC)	01.07.08	

S C KHANSILI  
Dir MS(X)

ARMY BRANCH

No. 195, date 27th July 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

LT COL TO BE SUBSTANTIVE COL (BY SELECTION)

IC55863	PM TRIPATHI	AC	07-04-2014 but sen wef 04-03-2013
IC55875	T BADOLA	AC	04-07-2014 but sen wef 04-03-2013
IC55901	MS RATHORE	AC	30-06-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57726	A SHARMA	AC	07-07-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57730	N TANWAR	AC	01-08-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57731	R YADAV	AC	23-07-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57733	VJ KURIAN	AC	11-04-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57751	P KAPOOR, SM	AC	28-01-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57970	RANJEEV SINGH	AC	14-07-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57989	RS RATHORE	AC	21-06-2014 but sen wef 04-03-2013
IC58134	P BABERWAL	AC	15-03-2014 but sen wef 04-03-2013
IC58138	RS CHOUHAN	AC	30-04-2014 but sen wef 04-03-2013
IC58142	IESANTO K	AC	08-05-2014 but sen wef 04-03-2013
IC58405	S VERMA, SC	AC	05-03-2014 but sen wef 04-03-2013
SL03983	AS CHAUHAN	SL CIPHER	01-04-2014 but sen wef 01-05-2009
IC56701	Y S PARMAR, SM	AEC	10-02-2014 but sen wef 21-07-2011
IC56912	MP SINGH, SM	AEC	17-02-2014 but sen wef 21-07-2011
IC56918	T CHAKRAVARTY	AEC	07-03-2014 but sen wef 21-07-2011
IC56925	R RAGHAV	AEC	01-05-2014 but sen wef 21-07-2011
IC53156	TM SINHA	SIGS	03-03-2014 but sen wef 01-01-2010
IC57030	RK MALIK	SIGS	04-03-2014 but sen wef 24-04-2012
IC56675	VISHAL DUBEY	INF	26-09-2014 but sen wef 04-03-2013
IC55769	P JOSHI	INF	18-07-2014 but sen wef 04-03-2013



IC56993	AS CHAUHAN	INF	01-09-2014 but sen wef 05-03-2014
IC57905	S ROY	INF	25-09-2014 but sen wef 05-03-2014
IC57945	P SARKAR	INF	21-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58224	PRITHVIRAJ SR	INF	05-03-14
IC58284	S CHAKRAVARTI	INF	22-03-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58553	PRADEEP RANA	INF	20-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58403	CB BHARATHAN,SC	INF	24-03-2014 but sen wef 04-03-2013
IC56055	RS BAZAD, SM**	INF	05-05-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56061	HB THAPA,SM	INF	19-08-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56075	PATHANIA G	INF	28-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56079	KB GURUNG, SC	INF	04-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56085	SHAH PK	INF	21-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56123	S SHAH, SM**	INF	28-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56155	DK DAYAL, SM	INF	20-09-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58591	H LIDDER, SM	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58596	R CHATTERJEE	INF	10-10-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58617	R FERNANDES	INF	09-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58622	VIKAS GUPTA, SC	INF	04-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58629	AMIT KABDWAL	INF	16-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58662	BINESH NAIR, SM	INF	28-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58671	R GIRI	INF	01-09-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58683	A KANWAL, SM	INF	25-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58689	J SINGH	INF	05-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58704	MUKESH SHARMA	INF	28-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58715	R DORJE	INF	10-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58724	PS CHAUDHARY	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58734	DIXIT VR	INF	15-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58740	AK MOR	INF	16-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58742	VIJAY KUMAR	INF	12-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58762	UDAY SINGH M	INF	10-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58765	SUDHIR KS	INF	03-08-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58788	VIJAY HOODA	INF	13-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58790	NEERAJ PANT, SM	INF	18-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58809	SHALABH PUN	INF	12-09-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58813	S DINNY	INF	14-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58817	SIMANTA PATHAK	INF	21-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58831	ABHISHEK BHAKAT	INF	30-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58833	MD BAL	INF	27-07-2014 but sen wef 05-03-2014

IC58844	S DHANKAR, SM	INF	22-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58861	A UPADHYAYA	INF	20-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58865	S CHATTERJEE	INF	22-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58875	SUDEEP BOSE	INF	23-07-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58884	ANUJ GUPTA	INF	11-09-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58898	PRAVEEN KUMAR	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58929	G KANWAL, SM	INF	11-08-2014 but sen wef 05-03-2014
IC54453	RR CHANDEL	MECH INF	11-10-2014 but sen wef 04-03-2013
IC55790	RS RATHORE	MECH INF	01-09-2014 but sen wef 04-03-2013
IC55912	S GURUNG	MECH INF	01-09-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57736	R CHAUDHRI	MECH INF	01-09-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57744	SATYAJIT PUJARI	MECH INF	19-02-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57794	VP SWAIN	MECH INF	01-09-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57845	R MATHEW	MECH INF	01-09-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57873	R SHEKHAR	MECH INF	20-10-2014 but sen wef 04-03-2013
IC57898	PK PARIDA	MECH INF	04-02-2014 but sen wef 04-03-2013
IC58237	MANISH SINGH	MECH INF	11-02-2014 but sen wef 04-03-2013
IC51771	KJ SINGH	ASC	01-05-2014 but sen wef 01-05-2009
IC52927	KDS HOODA	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54222	S VASHISTA	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC55478	V SONDHI	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54320	KJ SINGH	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54336	A GAUTAM, SM	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54348	KT ARASU	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54358	DATTA T	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54361	E PAUL, SM	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54380	S K CHHOKER	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54399	S BUGALIA	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54431	N SEHGAL	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54473	M KLAIR	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC56665	M JASROTIA	ASC	07-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC56676	D CHAUDHARY, SM**	ASC	05-09-2014 but sen wef 21-07-2011
IC56766	SS SHEKHAWAT	ASC	05-09-2014 but sen wef 21-07-2011
IC56856	OS RATHORE, SM	ASC	05-09-2014 but sen wef 21-07-2011
SL04005	ASHOK KUMAR	SL BS/TEO	14-07-2014 but sen wef 01-05-2009
IC54449	R VARMA	EME	05-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC54521	V MEHTA	EME	05-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC58081	JP SINGH	EME	05-07-2014 but sen wef 21-07-2011
IC56627	PANKAJ SHARMA	EME	05-07-2014 but sen wef 21-07-2011

IC56638	DEEPAK SISODIA	EME	05-07-2014 but sen wef 21-07-2011	
IC56655	S SINGH	EME	05-07-2014 but sen wef 21-07-2011	
IC56657	ROHIT UNIYAL	EME	05-07-2014 but sen wef 21-07-2011	
IC56666	HS LAMBA	EME	05-07-2014 but sen wef 21-07-2011	
IC56674	SAMIT BATRA	EME	05-07-2014 but sen wef 21-07-2011	
IC56698	A AWASTHI	EME	05-07-2014 but sen wef 21-07-2011	
IC55461	DM BHOSLE, SM	AVN	01-07-2014 but sen wef 24-04-2012	
IC54501	N KHURANA	AVN	16-04-2014 but sen wef 24-04-2012	
IC57161	G SINGH	AVN	29-07-2014 but sen wef 24-04-2012	
IC57173	KS THAKUR	AVN	17-07-2014 but sen wef 24-04-2012	
IC57459	MK DUBEY	AVN	28-03-2014 but sen wef 24-04-2012	
IC57741	S KOHLI	ARTY	14-12-2013 but sen wef 04-03-2013	
SL04195	ANUP SINGH	SL TOT	01-01-2014 but sen wef 31-12-2010	
SL04101	RB SINGH	SL RO	16-05-2014 but sen wef 01-06-2009	
SL04175	L KHATTRI	SL RO	16-05-2014 but sen wef 01-01-2010	
SL04007	LAXMI NARAYAN	SL QM	17-02-2014 but sen wef 01-05-2009	
IC-57326	A SINGH	ENGRS	26/07/2013 but sen wef 31/12/2010	DO Pt II encl
IC-57759	S THAMMAIAH	INF	25/07/2013 but sen wef 04/03/2013	

## MAJOR TO BE SUBSTANTIVE LT COL (BY TIME SCALE)

IC-22944F      Maj    SM Dhawan,    ASC      18 Aug 1987

NAVIN KUMAR  
Dy Dir  
MS 8A

## ARMY BRANCH

No. 196, dated 28th July 2015—The President is pleased to make the following promotions.

REGULAR ARMY  
(INTELLIGENCE CORPS)

## TO BE NB SUB INT (GD)

HAV (INT GD) PRASANTA KUMAR SAHU	13985340N	JC811962L	01 JUL 2014
HAV (INT GD) NARAHARI MAITY	13985314M	JC811963N	01 JUL 2014
HAV (INT GD) AVANISH KUMAR TRIPATHI	14804162A	JC811964W	01 JUL 2014
HAV (INT GD) KV SUNIL KUMAR	2595687M	JC811965Y	01 JUL 2014
HAV (INT GD) MANIVANNAN R	6484630F	JC811966F	01 JUL 2014
HAV (INT GD) RADHA KRISHANA PILLAI M	15311269L	JC811967K	01 JUL 2014
HAV (INT GD) RAM SHARAN	13693093F	JC811968M	01 JUL 2014
HAV (INT GD) SHRI RAM	14806749X	JC811969P	01 JUL 2014
HAV (INT GD) ALGUR ANIL SIDHESHWAR	14804066L	JC811970K	01 JUL 2014
HAV (INT GD) V ESWARAN	15311760N	JC811971M	01 JUL 2014

HAV (INT GD) SANJAY KUMAR	14804207P	JC811972P	01 JUL 2014
HAV (INT GD) JAIBIR SINGH	2992403A	JC811973X	01 JUL 2014
HAV (INT GD) AJAY KUMAR	14806962X	JC811974A	01 JUL 2014
HAV (INT GD) MV REDDY	14806970W	JC811975H	01 JUL 2014
HAV (INT GD) SURESH CHANDER POONIA	15461503F	JC811976L	01 JUL 2014
HAV (INT GD) ROHTAS	2484028H	JC811977N	01 JUL 2014
HAV (INT GD) DHARAM PAL	2484034W	JC811978W	01 JUL 2014
HAV (INT GD) HIRA SINGH BHAKUNI	4185194W	JC811979Y	01 JUL 2014
HAV (INT GD) SHIV RAJ SINGH KHATI	4185243N	JC811980N	01 JUL 2014
HAV (INT GD) SONU B	15380231M	JC811981W	01 JUL 2014
HAV (INT GD) SANTHOSH KUMAR K	15379898F	JC811982Y	01 JUL 2014
HAV (INT GD) UMASHANKAR J	2596570A	JC811983F	01 JUL 2014
HAV (INT GD) RAVINDER SINGH	3991753W	JC811984K	01 JUL 2014
HAV (INT GD) UNNI KRISHNAN V	14804428F	JC811985M	01 JUL 2014
HAV (INT GD) GAFOOR K	15379975L	JC811986P	01 JUL 2014
HAV (INT GD) RAJESH SINGH	14807066W	JC811987X	01 JUL 2014
HAV (INT GD) DURAI K	14804445F	JC811988A	01 JUL 2014
HAV (INT GD) V SHAKTHI	14804451P	JC811989H	01 JUL 2014
HAV (INT GD) NARASIMHULU R	14804455L	JC811990X	01 JUL 2014
HAV (INT GD) ROOP LAL SHARMA	3991775P	JC811991A	01 JUL 2014
HAV (INT GD) N RAJAN	13985643H	JC811993L	01 AUG 2014
HAV (INT GD) S KIFAYATHULLAH	14804493F	JC811994N	01 AUG 2014
HAV (INT GD) PREM CHANDRA YADAV	4185264K	JC811995W	01 AUG 2014
HAV (INT GD) SARVESH KUMAR	2991412P	JC811996Y	01 AUG 2014
HAV (INT GD) SALUNKE BHARAT HARI BHAI	14809013W	JC811997F	01 AUG 2014
HAV (INT GD) ANIL KUMAR	14809033K	JC811998K	01 AUG 2014
HAV (INT GD) S THIRUPPATHI	14809034M	JC811999M	01 AUG 2014
HAV (INT GD) PRASANTA MONDAL	13985562H	JC812000N	01 AUG 2014
HAV (INT GD) JARNAIL SINGH	3393199X	JC812011A	10 SEP 2014 *01 SEP 2014

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (INT GD) INDRAJEET RAI	14809086H	JC812012H	01 SEP 2014
HAV (INT GD) BHUPENDAR SINGH RAWAT	4185305H	JC812013L	01 SEP 2014
HAV (INT GD) MANOHAR KUMAR SINGH	13985630L	JC812014N	01 SEP 2014
HAV (INT GD) GURPINDER SINGH	3393239N	JC812015W	01 SEP 2014
HAV (INT GD) GOUTAM NAYAK	14809174Y	JC812016Y	01 SEP 2014
HAV (INT GD) NK SATHEESAN	2596250L	JC812017F	01 SEP 2014
HAV (INT GD) ASHOK SINGH	7777415H	JC812021K	12 NOV 2014 *01 OCT 2014

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV ( INT GD) GOVIND SINGH NEGI	4185254A	JC812022M	27 OCT 2014 *01 OCT 2014
---------------------------------	----------	-----------	-----------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (INT GD) SHER SINGH	5451857Y	JC812023P	02 OCT 2014
HAV (INT GD) SASI KUMAR A	14809051M	JC812024X	01 NOV 2014
HAV (INT GD) GURNAM SINGH KATWAL	2484150Y	JC812025A	01 NOV 2014
HAV (INT GD) ANIL KUMAR SHARMA	14809205N	JC812026H	13 NOV 2014 *01 NOV 2014

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (INT GD) RAJESH KUMAR	3991812X	JC812027L	15 NOV 2014 *01 NOV 2014
---------------------------	----------	-----------	-----------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (INT GD) BAL SINGH	1486936N	JC812028N	19 NOV 2014 *13 NOV 2014
------------------------	----------	-----------	-----------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 13 Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (INT GD) DUNGER SINGH	4185198M	JC812029W	24 NOV 2014 *17 NOV 2014
---------------------------	----------	-----------	-----------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 16 Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (INT GD) PADMANABHAN J	14809040A	JC812030L	04 DEC 2014 *01 DEC 2014
----------------------------	-----------	-----------	-----------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 DEC 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (INT GD) AJITH KUMAR K	14809230M	JC812031N	01 DEC 2014
----------------------------	-----------	-----------	-------------

TO BE NB SUB CLK (SD)

HAV (CLK SD) ANUP SINGH	9100970L	JC811954M	01 JUL 2014
HAV (CLK SD) GAJENDRA SINGH NEGI	4364223W	JC811955P	01 JUL 2014
HAV (CLK SD) PAWAN KUMAR DWIVEDI	5754811A	JC811956X	01 JUL 2014
HAV (CLK SD) BIRENDRA KUMAR	13755664A	JC811957A	01 JUL 2014
HAV (CLK SD) TARUN KUMAR GAUTAM	15383961H	JC811958H	01 JUL 2014
HAV (CLK SD) KAMLESH KUMAR CHOUBEY	5453734L	JC811959L	01 JUL 2014
HAV(CLK SD)KOLHE BHAUSAHEB NARAYAN	5453742K	JC811960A	01 JUL 2014
HAV (CLK SD) UPENDRA SINGH	9102242K	JC811961H	01 JUL 2014
HAV (CLK SD) RAM PRASAD KHUTIA	4189113H	JC811992H	01 AUG 2014
HAV (CLK SD) VIJAY KUMAR	6937871Y	JC812010X	09 OCT 2014 *01 SEP 2014

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (CLK SD) THIYAGARAJAN R	4364438P	JC812018K	11 NOV 2014 *01 OCT 2014
-----------------------------	----------	-----------	-----------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (CLK SD) ADAIKKALA RAJ P	9102248L	JC812019M	25 OCT 2014 *01 OCT 2014
------------------------------	----------	-----------	-----------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (CLK SD) RAMESH KUMAR	1589685P	JC812020F	30 OCT 2014 *01 OCT 2014
---------------------------	----------	-----------	-----------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

TO BE NB SUB (TRL)

HAV (INT GD) SASI KUMAR KP	2602841L	JC812001W	11 AUG 2014 *15 JUNE 2014
----------------------------	----------	-----------	------------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 15 Jun 2014 without effect on pay and allowances)

RHM (TCL) R MUTHU KUMAR	15680031P	JC812002Y	12 AUG 2014 *15 JUNE 2014
-------------------------	-----------	-----------	------------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 15 Jun 2014 without effect on pay and allowances).

HAV (TCL) AMIT KUMAR SINGH	15150826L	JC812003F	11 AUG 2014 *15 JUNE 2014
----------------------------	-----------	-----------	------------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 15 Jun 2014 without effect on pay and allowances)

RHM (TCL) SUDHAKARAN	6943209A	JC812004K	17 JUN 2014 *15 JUNE 2014
----------------------	----------	-----------	------------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 15 Jun 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (TCL) PATIL PRASHANT ASHOK	6947142K	JC812005M	11 AUG 2014 *15 JUNE 2014
--------------------------------	----------	-----------	------------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 15 Jun 2014 without effect on pay and allowances)

RHM (TCL) ANEESH K RAJENDRAN	13624188W	JC812006P	17 JUN 2014
------------------------------	-----------	-----------	-------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 15 Jun 2014 without effect on pay and allowances)

RHM (TCL) REJIMON R	15677919M	JC812007X	17 JUN 2014 *15 JUNE 2014
---------------------	-----------	-----------	------------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 15 Jun 2014 without effect on pay and allowances)

RHM (TCL) SK SHEIKH	14830732H	JC812008A	17 JUN 2014 *15 JUNE 2014
---------------------	-----------	-----------	------------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 15 Jun 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (TCL) HARISH SINGH	4199851A	JC812009H	11 AUG 2014 *15 JUNE 2014
------------------------	----------	-----------	------------------------------

\*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 15 Jun 2014 without effect on pay and allowances)

U K TIWARI  
Desk Officer

DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT  
(DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION)

No. 197, dated 29th July 2015—The President is pleased to make the following promotions:—

ACTING MAJ GEN TO SUBSTANTIVE MAJ GEN

IC-42888P Maj Gen Ajay Gupta, Armd Corps	22.04.2014
---	------------

## ACTING AIR VICE MARSHAL TO SUBSTANTIVE AIR VICE MARSHAL

AVM Y Radhakrishna (16544-T), AE(M) 24.04.2014

## ACTING REAR ADMIRAL TO SUBSTANTIVE REAR ADMIRAL

R Adm Ranjit Singh (50993-T), Elect 22.04.2014

B K MISHRA  
Addl Dir (Pers-AF)

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 198, dated 30th July 2015—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef the date (F/N) as mentioned against each:—

S PALANICHAMY (SC)	CVRDE	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	03.09.2014
K PRABHAKAR RAO	CVRDE	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
N MOHAN	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
K RAMANAN (SC)	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
K VEERAMANI (SC)	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
V THAMARAI SELVAN (SC)	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
D PARTHASARATHY	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
N THANULINGAM NADAR	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
V MUTHUCHAMY (SC)	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
A PANCHAKSHARAM	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
M PACHIAPPAN	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
C THIRUNAVUKKARASU	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
N SIVANANDAN	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
K SHANMUGASUNDARAM	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
S PALANI	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
P SEKAR	CVRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
BK VIJAYAKUMAR (SC)	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014

K THIRUNAVUKKARASU	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
K GAUTAMAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
B RAMANATHAN	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
V PITCHAIYA	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
N RAMU	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
R MANOHAR	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
V MANI (SC)	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
A VELLAICHAMY (SC)	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
M RAMESH KUMAR	CVRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
M EDWIN THANGARAJ	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
K HARIKRISHNAN	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
N ELAYARAJA	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
N REKHA	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
VR PRASEENA	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
R GOPINATH	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PK GOPI	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
DURAI MURUGAN N	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
KM SHIJU	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
JS HARIKRISHNAN	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
S SUJITH	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
C SEAN	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PANKAJ KUMAR SHARMA	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014



V NITHYANANDAM	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
C NAGARAJAN (SC)	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
P SUBRAMANI (OBC)	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
R RAVI (SC)	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
K SIVASANKAR (SC)	CVRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
M CHAKKARAVARTHI (SC)	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
R SOUNDARARAJAN	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
D DAVID JEYAKUMAR	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
G VENKATARAMAN (SC)	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
G GNANASEKAR	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
N SUBRAMANIAN (SC)	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
M ANBAZHAGAN (SC)	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
L CHELLACHAMY (SC)	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
AG RAJA (SC)	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
A RICHARD ACHARIAM	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
K VEERAMUTHU	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
S ADHIAMAN	CVRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
VK ARORA	IRDE	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
VIPIN CHANDRA	IRDE	TO-C	TO-D	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 7600/-	01.09.2014
BHAG CHAND	IRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
BB NAUTIYAL	IRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
VIRENDRA SINGH (ST)	IRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014

PRABHAT KUMAR	IRDE	TO-B	TO-C	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 6600/-	01.09.2014
SANJAYA KUMAR (SC)	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
MONICA TANDON	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
DINESH KUMAR SHARMA	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
PRADEEP SINGH PANWAR	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
JAMNA PRASAD (SC)	IRDE	TO-A	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
DHIRAJ LAL DABRAL	IRDE	TO	TO-B	PB-3(15600-39100) +GP Rs. 5400/-	01.09.2014
ARUN KUMAR (OBC)	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
MANOJ KUMAR JOSHI	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SACHIN KUMAR DHIMAN (OBC)	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
RAVI KANT	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
DIVYA KACHHWAH	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
KRISHNA KUMAR SINGH	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PRAVIN PRASHAR SHARMA	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
PAWAN KUMAR DUBEY	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
NAMRATA JOSHI	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SUSHIL KUMAR	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
JODHRAJ MEENA (ST)	IRDE	STA-B	TO-A	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SATYAVIR SINGH (SC)	IRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
RISHIPAL (SC)	IRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
INDERPAL SINGH (SC)	IRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
VIJAY KUMAR JOSHI	IRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014

PRADEEP KUMAR	IRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014
SATYA NARAYAN DANGWAL	IRDE	TA-B	TO	PB-2(9300-34800) +GP Rs. 4600/-	01.09.2014

ADARSH KUMAR  
Joint Director (Pers-TC)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 199, dated 31st July 2015—The President is pleased to make the following promotion :—

Smt. Rajni Chawla to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 08.02.2011(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

Sh. C B Kulkarni to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.01.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

Sh. M R Das to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 25.03.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. N Srinivas to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.01.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

Smt. Harminder Kaur to be Sr. Private Secretary, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01.01.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay Rs. 4,800/-.

Smt. Meena Saxena to be Sr. Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 10.04.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600-39,100/- (PB3) and Grade Pay Rs. 5,400/- .

Smt. T Sulochana to be Sr. Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 01.06.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600-39,100/- (PB3) and Grade Pay Rs. 5,400/- .

Sh. B F Sutar to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.06.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600-39,100/- (PB3) and Grade Pay Rs. 5,400/- .

Sh. Alok Mehta to be Civilian Security Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 17.06. 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600-39,100/- (PB3) and Grade Pay Rs. 5,400/- .

Sh. A M Khedlekar to be Accounts Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 21.08.2009 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay Rs. 4,600/-.

Sh. Daulat Singh Jairwar to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.01.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600-39,100/- (PB3) and Grade Pay Rs. 5,400/- .

Smt. Rajni Chawla to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.01.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600-39,100/- (PB3) and Grade Pay Rs. 5,400/- .

Sh. Karan Singh Gwal to be Sr. Stores Officer-I, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 01.01.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600-39,100/- (PB3) and Grade Pay Rs. 6,600/-

Smt. G Padmini to be Sr. Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 02.04.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600-39,100/- (PB3) and Grade Pay Rs. 5,400/- .

The President is pleased to make the following promotions (Gp 'B') Gazetted to the under mentioned Officers for the Post and Date shown against their names:—

Sh. Ganesh Thapa	AO	IRDE, Dehradun	03.11.14	PB-2, GP-4600
Smt. H B Worlikar	AO	NMRL, Ambernath	01.04.15	PB-2, GP-4600
Smt. Samina A Shaikh	PS	VRDE, Ahmednagar	16.04.15	PB-2, GP-4600
Sh. K Aravindakshan	PS	NPOL, Kochi	04.05.15	PB-2, GP-4600
Sh. S Dakshina Murthy	AO	GTRE, Bangalore	05.05.15	PB-2, GP-4600
Miss S T Bose	AO	ARDE, Pune	05.05.15	PB-2, GP-4600
Smt. Mohini Narasimha	PS	LRDE, Bangalore	01.06.15	PB-2, GP-4600
Sh. Mohd. Saifulla	PS	LRDE, Bangalore	01.06.15	PB-2, GP-4600
Smt. Vanita Kapoor	PS	DG (Med & CoS) DRDO HQ	01.07.15	PB-2, GP-4600

RAJEEV RANJAN SINHA  
Dy Director (Pers)

MILITARY SECRETARY'S BRANCH  
CORRIGENDUM

No. 200, dated 3rd August 2015—In the Government of India, Ministry of Defence, published in the Gazette of India, New Delhi, dated 28 Mar 2015 under the heading REGULAR ARMY, PERMANENT COMMISSION, TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIER, MILITARY SECRETARY'S BRANCH is hereby amended as under:—

FOR:—

IC-41485	BRIG	S SANGWAN	ASC	01.08.13	01.08.13 with seniority from 31.08.09 without effect on pay and pension.
----------	------	-----------	-----	----------	--

READ:—

IC-41485	BRIG	S SANGWAN	ARMD	01.08.13	01.08.13 with seniority from 31.08.09 without effect on pay and pension.
----------	------	-----------	------	----------	--

SC KHANSILI  
Dir/MS(X)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015  
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in